

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

साप्ताहिक/WEEKLY

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 50] नई दिल्ली, शनिवार, दिसम्बर 13—दिसम्बर 19, 2014 (अग्रहायण 22, 1936)

No. 50] NEW DELHI, SATURDAY, DECEMBER 13—DECEMBER 19, 2014 (AGRAHAYANA 22, 1936)

इस भाग में भिन्न पृष्ठ सं. दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
(Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation)

भाग I—खण्ड 4

[PART I—SECTION 4]

[रक्षा मंत्रालय द्वारा जारी की गई सरकारी अफसरों की नियुक्तियों, पदोन्नतियों व छुट्टियों आदि से सम्बन्धित
अधिसूचनाएं]

[Notifications regarding Appointments, Promotions, Leave etc. of Government Officers issued by
the Ministry of Defence]

रक्षा मंत्रालय

नई दिल्ली, दिनांक 13 दिसम्बर 2014

सेना शाखा

सं. 280, दिनांक 25 नवम्बर, 2014—राष्ट्रपति थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं :—

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

1. निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 06 सितम्बर 2013 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर मेजर रैंक में 06 सितम्बर 2013 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :—

क्रम संख्या	एस एस सं०	आई सी सं० आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
(क)	एसएस 40249पी	आईसी 65901ए	परवित कुमार सिवाच	ई एम ई
(ख)	एसएस 40261 डब्ल्यू	आईसी 65904एन	विक्रम बिररा	ई एम ई

2. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

(क) वेतन वृद्धि के लिये तारीख -06 नवम्बर 2001

(ख) पदोन्नति के लिये तारीख -06 नवम्बर 2001

3. उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है की परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

1. निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 20 मार्च 2014 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर मेजर रैंक में 20 मार्च 2014 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:-

क्रम संख्या	एस एस सं०	आई सी सं० आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
(क)	एसएस 40508एम	आईसी 66035 डब्ल्यू	विशाल अरोडा	ई एम ई
(ख)	एसएस 40509पी	आईसी 66036वाई	रवि प्रकाश	ई एम ई
(ग)	एसएस 40526पी	आईसी 66043पी	अनुज कुमार आचार्य	इंजीनियर

2. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

(क) वेतन वृद्धि के लिये तारीख -20 अप्रैल 2002

(ख) पदोन्नति के लिये तारीख -20 अप्रैल 2002

3. उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है की परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

राष्ट्रपति थल सेना अनुदेश 3 विशेष 70 के अंतर्गत निम्नलिखित नियुक्तियाँ करते हैं:-

नियमित सेना

स्थायी कमीशन

1. निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 07 सितम्बर 2012 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर मेजर रैंक में 07 सितम्बर 2012 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

क्रम संख्या	एस एस सं०	आई सी सं० आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
(क)	एसएस 39925एम	आईसी 65757डब्ल्यू	मेहरीष कटारिया	इंफैं

2. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

(क) वेतन वृद्धि के लिये तारीख -07 सितम्बर 2002

(ख) पदोन्नति के लिये तारीख -07 मई 2003

3. उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है की परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

1. निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 08 मार्च 2013 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर मेजर रैंक में 08 मार्च 2013 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:-

क्रम संख्या	एस एस सं०	आई सी सं० आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
(क)	एसएस 40008पी	आईसी 65812एफ	चरणजीत सिंह सन्धू	इंफैं

2. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

(क) वेतन वृद्धि के लिये तारीख -08 मार्च 2003

(ख) पदोन्नति के लिये तारीख -08 नवम्बर 2003

3. उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है की परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

1. निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 08 मार्च 2013 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर मेजर रैंक में 08 मार्च 2013 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:—

क्रम संख्या	एस एस सं०	आई सी सं० आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
(क)	एसएस 40103एफ	आईसी 65874एफ	तोनसिंग सोंगलियनथुअम	इंफैं

2. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :—

- (क) वेतन वृद्धि के लिये तारीख —08 मार्च 2003
 (ख) पदोन्नति के लिये तारीख —08 नवम्बर 2003

3. उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है की परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

1. निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके द्वारा 06 सितम्बर 2013 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर मेजर रैंक में 06 सितम्बर 2013 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:—

क्रम संख्या	एस एस सं०	आईसी सं० आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
(क)	एसएस 40340एल	आईसी 65953 डब्ल्यू	सन्दीप कुमार	ए ओ सी
(ख)	एसएस 40442एफ	आईसी 66005वाई	नवनीत गढवाल	इंजीनियर
(ग)	एसएस 40346एम	आईसी 65957एम	लैशराम राजु सिंह	इंफैं

2. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :—

- (क) वेतन वृद्धि के लिये तारीख —06 सितम्बर 2003
 (ख) पदोन्नति के लिये तारीख —06 मई 2004

3. उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों, जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है की परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

1. निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके द्वारा 20 मार्च 2014 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर मेजर रैंक में 20 मार्च 2014 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:—

क्रम संख्या	एस एस सं०	आई सी सं० आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
(क)	एसएस 40532एच	आईसी 66047एल	बिरेन्द्र पठानियां	इंफैं
(ख)	एसएस 40533एल	आईसी 66048एन	सन्नी	इंजीनियर
(ग)	एसएस 40549डब्ल्यू	आईसी 66058एक्स	राउत ऋषिकेश देविदास	आर्टी
(घ)	एसएस 40552डब्ल्यू	आईसी 66060पी	बट्टीयन्डा नन्जप्पा प्रकाश	ई एम ई
(ङ)	एसएस 40555के	आईसी 66062ए	कार्तिक आर	इंफैं
(च)	एसएस 40561एक्स	आईसी 66068एफ	भारत वर्मा	इंजीनियर
(छ)	एसएस 40566डब्ल्यू	आईसी 66071एफ	डी कोमू	इंफैं
(ज)	एसएस 40578एल	आईसी 66077एच	चरनदीप सिंह मेंनी	इंफैं

(झ)	एसएस 40579एन	आईसी 66078एल	दीपक कुमार तिवारी	इंफैं
(ट)	एसएस 40584वाई	आईसी 66081एल	कमल गौतम, एस एम	ए ए डी
(ठ)	एसएस 40587एम	आईसी 66083 डब्ल्यू	हिमान्शु नेगी	इंफैं
(ड)	एसएस 40591पी	आईसी 66086 के	पियूष चौहान	इंफैं
(ढ)	एसएस 40598वाई	आईसी 66089एक्स	मनीष जटराना	इंफैं
(ण)	एसएस 40601एन	आईसी 66091पी	मयंक अग्रवाल	ए सी
(त)	एसएस 40616डब्ल्यू	आईसी 66097डब्ल्यू	आशिक हुसैन	आई
(थ)	एसएस 40617वाई	आईसी 66098वाई	एबिसन जैकब	ई एम ई
(द)	एसएस 40618एफ	आईसी 66099एफ	सन्दीप जोशी	इंफैं
(ध)	एसएस 40620वाई	आईसी 66100एल	कपिल कश्यप	इंफैं
(न)	एसएस 40622के	आईसी 66101एन	शौकत अली सय्यद	ई एम ई
(प)	एसएस 40635एफ	आईसी 66109ए	शमिन्दर सिंह मान	ए सी
(फ)	एसएस 40639एक्स	आईसी 66112ए	ललित सहगल	इंफैं
(ब)	एसएस 40641पी	आईसी 66113एच	अभिषेक कुमार	ए ओ सी
(भ)	एसएस 40644एच	आईसी 66114एल	सी जिद्धिन	इन्ट
(म)	एसएस 40651वाई	आईसी 66116डब्ल्यू	करणजीत सिंह बरार	ए सी
(य)	एसएस 40652एफ	आईसी 66117वाई	सत्येन्द्र सिंह	इंफैं
(र)	एसएस 40674ए	आईसी 66125एक्स	गौरव जोशी	इंफैं
(ल)	एसएस 40681डब्ल्यू	आईसी 66128एल	गौरव तोमर	आई
(व)	एसएस 40693एल	आईसी 66130एच	सिद्धार्थ सिंह	इंफैं

2. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

(क) वेतन वृद्धि के लिये तारीख -20 मार्च 2004

(ख) पदोन्नति के लिये तारीख -20 अक्टूबर 2004

3. उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों, जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है की परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

1. निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके द्वारा 20 मार्च 2014 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर मेजर रैंक में 20 मार्च 2014 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:-

क्रम संख्या	एस एस सं०	आई सी सं० आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
(क)	एसएस 40540एफ	आईसी 66052डब्ल्यू	प्रभात राई	ए ओ सी

2. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

(क) वेतन वृद्धि के लिये तारीख -20 मार्च 2004

(ख) पदोन्नति के लिये तारीख -20 अक्टूबर 2004

3. उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों, जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है की परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

1. निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके द्वारा 20 मार्च 2014 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर मेजर रैंक में 20 मार्च 2014 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:-

क्रम संख्या	एस एस सं०	आई सी सं० आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
(क)	एसएस 40654एम	आईसी 66118एफ	एस विश्वनाथन	इंफैं

2. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

- (क) वेतन वृद्धि के लिये तारीख -20 मार्च 2004
(ख) पदोन्नति के लिये तारीख -20 अक्टूबर 2004

3. उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों, जिन्हें सेवा के दसवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है की परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

1. निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 21 नवम्बर 2013 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेंट के रैंक में 21 नवम्बर 2013 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

क्रम संख्या	एस एस सं०	आई सी सं० आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
(क)	एस एस-41805एम	आई सी-72959ए	अमृत पाल सिंह	इंफैं
(ख)	एस एस-41836एम	आई सी-72960पी	राजेन्द्र राठौर	आर्टी
(ग)	एस एस-41846 डब्ल्यू	आई सी-72961एक्स	भास्कर जोशी	ए ओ सी
(घ)	एस एस-41856ए	आई सी-72962ए	सी एच जेकब	इंफैं
(ङ)	एस एस-41873ए	आई सी-72963एच	गुरअमर सिंह	ए ए डी
(च)	एस एस-41879एफ	आई सी-72964एल	किशोर सिंह	आर्टी
(छ)	एस एस-41904पी	आई सी-72965एन	श्रीनिधि सि जे	ए ए डी
(ज)	एस एस-41912एन	आई सी-72966डब्ल्यू	सुनील कुमार	इंफैं
(झ)	एस एस-41916के	आई सी-72967वाई	अन्शुमान शर्मा	इंफैं
(ट)	एस एस-41927डब्ल्यू	आई सी-72968एफ	गिनसोनलाल तोनसिंग	इंफैं
(ठ)	एस एस-41930डब्ल्यू	आई सी-72969के	महेन्द्र सिंह	आर्टी
(ड)	एस एस-41938एच	आई सी-72970वाई	अरुण कुमार वशिष्ठ	ए सी
(ढ)	एस एस-41954ए	आई सी-72972के	नायर राजीव शशीधरन	इंफैं
(ण)	एस एस-41968ए	आई सी-72973एम	योगेश लाद	इंफैं
(त)	एस एस-41974एन	आई सी-72974पी	ललित मोहन शर्मा	इंफैं
(थ)	एस एस-41976वाई	आई सी-72975एक्स	सुमित जोशी	ए एस सी
(द)	एस एस-41996एम	आई सी-72976ए	उदयवीर सिंह सान्नावान	ए ओ सी

2. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

- (क) वेतन वृद्धि के लिये तारीख -18 मार्च 2004
(ख) पदोन्नति के लिये तारीख -18 अक्टूबर 2007

3. उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के आठवें वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

1. निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 22 मार्च 2013 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेंट के रैंक में 22 मार्च 2013 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:-

क्रम संख्या	एस एस सं०	आईसी सं० आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
(क)	एस एस 42965 वाई	आईसी 73578एल	विक्रम मेहरा	आर्टी

2. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

- (क) वेतनवृद्धि के लिये तारीख -22 मार्च 2008
(ख) पदोन्नति के लिये तारीख -22 अक्टूबर 2008

3. उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है की परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

1. निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 20 सितम्बर 2013 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेंट के रैंक में 20 सितम्बर 2013 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

क्रम संख्या	एस एस सं०	आईसी सं० आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
(क)	एसएस43188एन	आईसी 73641पी	राकेश शाह	इंफैं
(ख)	एसएस 43197 पी	आईसी 73649एफ	कविन्द्र गुरुंग	इंफैं
(ग)	एसएस 43258एफ	आईसी 73701वाई	अभिषेक भूटानी	आर्टी
(घ)	एसएस 43251एक्स	आईसी 73695 डब्ल्यू	अंकुश सिंह	आर्टी
(ङ)	एसएस 43212वाई	आईसी 73661एच	विशाल गुलेरिया	इंफैं

2. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

- (क) वेतनवृद्धि के लिये तारीख -20 सितम्बर 2008
(ख) पदोन्नति के लिये तारीख -20 अप्रैल 2009

3. उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

1. निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 20 सितम्बर 2013 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेंट के रैंक में 20 सितम्बर 2013 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है :-

क्रम संख्या	एस एस सं०	आईसी सं० आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
(क)	एसएस 43187एल	आईसी 73640एम	तकदीर सिंह	इंफैं
(ख)	एसएस 43279एक्स	आईसी 73716एफ	अतुल कुमार	मैंक
(ग)	एसएस 43315एक्स	आईसी 73747एफ	राहुल कुमार	इंजीनियर

2. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी:-

- (क) वेतनवृद्धि के लिये तारीख -20 सितम्बर 2008
(ख) पदोन्नति के लिये तारीख -20 अप्रैल 2009

3. उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

1. निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन प्राप्त अधिकारियों को उनके 20 सितम्बर 2013 से अल्प सेवा कमीशन छोड़ने पर लेफ्टिनेंट के रैंक में 20 सितम्बर 2013 से स्थायी कमीशन प्रदान किया जाता है:-

क्रम संख्या	एस एस सं०	आई सी सं० आबंटित	नाम	आर्म/सर्विस
(क)	एसएस 43184एक्स	आईसी 73635एफ	सत्य शरण आत्माराम	ई एम ई

2. उपरोक्त अधिकारी की पदोन्नति की तारीख निम्नलिखित होगी :-

- (क) वेतन वृद्धि के लिये तारीख -20 अक्टूबर 2006

(ख) पदोन्नति के लिये तारीख -20 अक्टूबर 2006

3. उपरोक्त अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों जिन्हें सेवा के पांच वर्ष बाद स्थाई कमीशन प्रदान किया गया है उनकी परस्पर वरिष्ठता वही रहेगी जो अल्प सेवा कमीशन प्रदान करते समय राजपत्र अधिसूचना में दी गयी है।

शैलेश उनियाल
कर्नल
कर्नल सेना सचिव 7

वायु शाखा

सं. 281, दिनांक 25 नवम्बर, 2014—राष्ट्रपति महोदय, भारत सरकार रक्षा मंत्रालय के पत्र संख्या 160सी सी/डी (एयर-III)/2011, वा. से. मु./21901/एस एस सी/पीसी/पीओ-3(ई) दिनांक 05 अगस्त 2011 के उपबंधों के अन्तर्गत निम्नलिखित अल्प सेवा कमीशन अफसरों को उनके नाम के सामने दी गयी तिथि से स्थायी कमीशन प्रदान करते हैं।

भारतीय वायुसेना

लेखा शाखा

स्क्वाड्रन लीडर डेजी मेहता (26619) 16 जून 2006 से
स्क्वाड्रन लीडर नमिता आनन्द शर्मा (26621) 16 जून 2006 से
स्क्वाड्रन लीडर प्रीति बहुगुणा (26624) 16 जून 2006 से

प्रशासनिक शाखा

स्क्वाड्रन लीडर प्रतिभा शर्मा (26613) 16 जून 2006 से
स्क्वाड्रन लीडर पारुल मिश्रा (26614) 16 जून 2006 से
स्क्वाड्रन लीडर शालिनी चौधरी (26617) 16 जून 2006 से
स्क्वाड्रन लीडर सोनिया मैथानी (26618) 16 जून 2006 से
स्क्वाड्रन लीडर मनमीत सिंह (26613) 22 जून 2007 से
स्क्वाड्रन लीडर एके प्रसाद (26634) 22 जून 2007 से
स्क्वाड्रन लीडर सुधांशु कुमार (26635) 22 जून 2007 से
स्क्वाड्रन लीडर सुमेश एस नायर (26637) 22 जून 2007 से

वैमानिक इंजीनियरी (इलेक्ट्रानिक) शाखा

स्क्वाड्रन लीडर गितांजली सागर (26667) 02 जुलाई 2007 से
स्क्वाड्रन लीडर रश्मि रावत (26672) 02 जुलाई 2007 से
स्क्वाड्रन लीडर मंगलास्सरी प्रीथा (26674) 02 जुलाई 2007 से
स्क्वाड्रन लीडर भुपेंद्रकुमार सांतनी श्रेणी (26675) 02 जुलाई 2007 से
स्क्वाड्रन लीडर पुनीत शर्मा (27164) 08 जुलाई 2012 से
स्क्वाड्रन लीडर तुहिना सिंह (27167) 08 जुलाई 2012 से
स्क्वाड्रन लीडर प्रणव शर्मा (27170) 08 जुलाई 2012 से
स्क्वाड्रन लीडर मनप्रीत बेदी (27172) 08 जुलाई 2012 से
स्क्वाड्रन लीडर आर सुभाद्रा (27176) 08 जुलाई 2012 से
स्क्वाड्रन लीडर योगिता चौहान (27177) 08 जुलाई 2012 से
स्क्वाड्रन लीडर शिल्पा सुरी (27178) 08 जुलाई 2012 से
स्क्वाड्रन लीडर अंजलि सिंह (27179) 08 जुलाई 2012 से
स्क्वाड्रन लीडर मनाली शुक्ल (27181) 08 जुलाई 2012 से
स्क्वाड्रन लीडर के महेश प्रिया (27182) 08 जुलाई 2012 से
स्क्वाड्रन लीडर वी शारदा (27183) 08 जुलाई 2012 से
स्क्वाड्रन लीडर शीतल चौहान (27184) 08 जुलाई 2012 से

स्क्वाड्रन लीडर रेणुका नायर(27185) 12 जुलाई 2012 से
 स्क्वाड्रन लीडर सुरभि अरोणा (27187) 13 जुलाई 2012 से
 स्क्वाड्रन लीडर दीप्ति मलिक (27189) 15 जुलाई 2012 से
 वैमानिक इंजीनियरी (मैकेनिकल) शाखा
 स्क्वाड्रन लीडर थामस विलफ्रेड डी' मेल्लो (27158) 08 जुलाई 2012 से
 स्क्वाड्रन लीडर ग्रहित क्रिस डी' सुजा (27159) 08 जुलाई 2012 से
 स्क्वाड्रन लीडर आर सदिश (27159) 08 जुलाई 2012 से
 स्क्वाड्रन लीडर अरुल एन्ड्रूज जे (27161) 08 जुलाई 2012 से
 स्क्वाड्रन लीडर पी अनिल कुमार (27162) 08 जुलाई 2012 से
 स्क्वाड्रन लीडर मुथ्युस्वामी सुजाता (27166) 08 जुलाई 2012 से
 स्क्वाड्रन लीडर अभिषेक ओझा (27190) 24 जुलाई 2012 से
 शिक्षा शाखा
 स्क्वाड्रन लीडर पूनम नेगी (26626) 16 जून 2006 से
 मौसम शाखा
 स्क्वाड्रन लीडर श्रेया पंडित (26211) 16 जून 2006 से
 स्क्वाड्रन लीडर विनिला वर्मा (26212) 16 जून 2006 से

एस के खनूजा
 विंग कमांडर
 जेडीपीओ-3(ई)

सेना शाखा

सं. 282, दिनांक 26 नवम्बर, 2014—को राष्ट्रपति जी निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं:-

नियमित सेना

स्थायी आयोग

ले0कर्नल से कर्नल के मूल रैंक में (समय मान) द्वारा

आई सी सं	नाम	आर्म	सब्सटेंटिब तिथि
43784ए	दिगविजय सिंह	गार्डस	14 जून 2012
44849पी	एस के सिंह	इन्फैंट्री	13 दिसम्बर 2013
45814एल	ए भटनागर	ए ए डी	05 नवम्बर 2013
45863एन	विकास राणा	इंजीनियर्स	05 नवम्बर 2013
45877एन	कमल सिंह	इन्फैंट्री	05 नवम्बर 2013
45885एम	एस नेगी	ए एस सी	05 नवम्बर 2013
45899एम	एफ एस भदौरिया	ए ओ सी	05 नवम्बर 2013
47005के	सी वी सिंह	ए सी	19 दिसम्बर 2013
47006एम	आर नथावत	मैंक इन्फैंट्री	19 दिसम्बर 2013
47022के	ए के अबरोल	ए ओ सी	19 दिसम्बर 2013
47084के	पी एस सांगवान	आर्टी	19 दिसम्बर 2013
47105पी	यश सक्सेना	इन्फैंट्री	19 दिसम्बर 2013
47131डब्ल्यू	दीपक कुन्द्रा	आर्टी	19 दिसम्बर 2013
47135एम	के एस रावत	इन्फैंट्री	19 दिसम्बर 2013
47136पी	एस के घोष	ए ओ सी	19 दिसम्बर 2013
47141ए	आर के अत्री	ए ओ सी	19 दिसम्बर 2013
47147एफ	एस भाटिया	ई एम ई	19 दिसम्बर 2013

47155ए	यू सी भट्ट	ए ओ सी	19 दिसम्बर 2013
47157एल	जी एस आर रॉव	ए ओ सी	19 दिसम्बर 2013
47160एल	पी के शर्मा	ए ए डी	19 दिसम्बर 2013
47164एफ	अजय कादियान	गार्डस	19 दिसम्बर 2013
47179के	वी पी सिंह	ए ओ सी	19 दिसम्बर 2013
47180वाय	डी एस रघुवंशी	इन्ट	19 दिसम्बर 2013
47185एक्स	मोहन सिंह	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47188एल	एस पी सिंह	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47201के	एच बरथवाल	ए सी	19 दिसम्बर 2013
47204एक्स	वी एम नायक	ए एस सी	19 दिसम्बर 2013
47214एफ	आर श्रीनिवास	आर्टी	19 दिसम्बर 2013
47232के	देवेन्द्र पाल	ई एम ई	19 दिसम्बर 2013
47236ए	हरप्रीत सिंह	ए ए डी	19 दिसम्बर 2013
47243 डब्ल्यू	बेबी सी एम	ए सी	19 दिसम्बर 2013
47254एच	के एस विधान	आर्टी	19 दिसम्बर 2013
47257 डब्ल्यू	के जे एस मयल	आर्टी	19 दिसम्बर 2013
47269एल	जी एस भाटी	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47270ए	एस एन शर्मा	आर्टी	19 दिसम्बर 2013
47273एन	ए के सिंह	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47277के	एस एस गुलेरिया	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47280के	एच एस चोपड़ा	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47289वाय	जी एस वर्मा	ए एस सी	19 दिसम्बर 2013
47294के	राजीव सिंह	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47300एम	सुशोभित कुमरा	ई एम ई	19 दिसम्बर 2013
47304एच	राम दान सिंह	ए एस सी	19 दिसम्बर 2013
47306एन	एस के पाण्डा	ए सी	19 दिसम्बर 2013
47316एक्स	डी आर सिन्हा	इंजीनियर्स	19 दिसम्बर 2013
47317ए	आर के पाठक	सिगनल्स	19 दिसम्बर 2013
47321एच	प्रीतपाल सिंह	ए ओ सी	19 दिसम्बर 2013
47326एफ	दीपक सिंह	आर्टी	19 दिसम्बर 2013
47328एम	आर के जसईवाल	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47330के	यू प्रकाश	सिगनल्स	19 दिसम्बर 2013

47332पी	डी के यादव	इंजीनियर्स	19 दिसम्बर 2013
47344के	ए एस ओबरोय	आर्टी	19 दिसम्बर 2013
47345एम	बी के धनकर	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47349एच	एम एस रावत	मैंक इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47369 डब्ल्यू	रवि प्रकाश	ए ओ सी	19 दिसम्बर 2013
47370एल	के एस तलवार	गार्डस	19 दिसम्बर 2013
47378एक्स	एस भूषण	इन्ट	19 दिसम्बर 2013
47383एच	जगनार सिंह	इन्ट	19 दिसम्बर 2013
47400एक्स	कुलदीप यादव	ई एम ई	19 दिसम्बर 2013
47412एम	पी एस गौतम	आर्टी	19 दिसम्बर 2013
47414एक्स	के पी मलिक	इंजीनियर्स	19 दिसम्बर 2013
47423वाय	एन जे सिवादे	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47430पी	आशिष मौलिक	ए सी	19 दिसम्बर 2013
47436 डब्ल्यू	जी मजुमदार	ए सी	19 दिसम्बर 2013
47437वाय	आर के चौधरी	ए एस सी	19 दिसम्बर 2013
47444पी	धरम पाल	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47446ए	एस गिलडियाल	ए सी	19 दिसम्बर 2013
47448एल	वी के शर्मा	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47453 डब्ल्यू	एस एस तोमर	आर्टी	19 दिसम्बर 2013
47454वाय	हरेन्द्र सिंह	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47462एक्स	ए एस गिल	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47463ए	आर एस बब्लल	आर्टी	19 दिसम्बर 2013
47467 डब्ल्यू	एस चौहान	आर्टी	19 दिसम्बर 2013
47474एम	के एस राठी	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
48907एल	एस के सिंह	ई एम ई	14 जून 2013
48946के	ए के दास	ई एम ई	14 जून 2013
49347 डब्ल्यू	आर पी दहिया	इंजीनियर्स	20 दिसम्बर 2013
49378 डब्ल्यू	दीपक कुमार	ई एम ई	20 दिसम्बर 2013
49394एन	ए के जून	इंजीनियर्स	20 दिसम्बर 2013
49410ए	संजीव गुप्ता	सिगनल्स	20 दिसम्बर 2013
49412एल	एस जी रॉय	इंजीनियर्स	20 दिसम्बर 2013
45829एन	राजीव नागपाल	इन्फेंट्री	05 नवम्बर 2013
43896ए	एस पी एस सेंगर	सिगनल्स	21 सितम्बर 2012

44664एम	वाय एस राणा	इन्फेंट्री	13 जून 2013
44738एक्स	जे जोशी	मेंक इन्फेंट्री	13 जून 2013
44845वाय	आर पी सिंह	इन्ट	13 जून 2013
44988वाय	यू के शर्मा	ए ई सी	13 जून 2013
47130एन	डी भण्डारी	ए ओ सी	19 दिसम्बर 2013
47158एन	जया कुमार एस	आर्टी	19 दिसम्बर 2013
47159 डब्ल्यू	जोगिन्दर कुमार	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47176 डब्ल्यू	एम आर आर नायर	इंजीनियर्स	19 दिसम्बर 2013
47202एम	आर के वर्मन	आर्टी	19 दिसम्बर 2013
47206एच	एन जे एस मान	ए ओ सी	19 दिसम्बर 2013
47218एक्स	ए एस बेरी	गार्डस	19 दिसम्बर 2013
47233एम	एस एस सिनसिनवार	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47281एम	जसवन्त सिंह	सिगनल्स	19 दिसम्बर 2013
47287एन	वी नेहरा	इन्ट	19 दिसम्बर 2013
47296पी	डी के शर्मा	मेंक इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47327के	के टी शेरपा	आर्टी	19 दिसम्बर 2013
47384एल	ए मल्होत्रा	ए एस सी	19 दिसम्बर 2013
47403एल	आर भूटानी	आर्टी	19 दिसम्बर 2013
47408के	विजय धवन	ए ओ सी	19 दिसम्बर 2013
47420एल	एस एस राठौर	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47421एन	के प्रसाद	इन्ट	19 दिसम्बर 2013
47429ए	एस एस कुलकर्णी	ए ओ सी	19 दिसम्बर 2013
47457एम	विशाल रॉय	ए ओ सी	19 दिसम्बर 2013
47471वाय	विवेक झांझी	ए एस सी	19 दिसम्बर 2013
49392एच	के डी सिंह	सिगनल्स	20 दिसम्बर 2013
40241एच	अनिल कुमार	आर्टी	19 दिसम्बर 2009
41351के	संजय कुमार	आर्टी	18 जून 2009
45848वाय	जी पी गोविन्द	ई एम ई	05 नवम्बर 2013
47040एम	समशेर यादव	मेंक इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47229के	दलविन्दर सिंह	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47239एन	सुधीर वर्मा	आर्टी	19 दिसम्बर 2013
47307 डब्ल्यू	एस रविचन्द्रर	ए सी	19 दिसम्बर 2013
47334ए	हरीश कटोच	ए सी	19 दिसम्बर 2013
47379ए	यू के पंत	ई एम ई	19 दिसम्बर 2013
47394पी	रंजीत सिंह	ए सी	19 दिसम्बर 2013
47475पी	एस वी बालाजी	आर्टी	19 दिसम्बर 2013

48920पी	उमेश सिंह	सिगनल्स	14 जून 2013
44594ए	एस के ओबेरॉय	इन्फेंट्री	13 जून 2013
44719एम	कामेश कुमार	सिगनल्स	13 जून 2013
44852पी	एम एन गोपाल	इन्फेंट्री	13 जून 2013
44936एच	सी आर रेडडी	ए ई सी	13 जून 2013
45205एफ	प्राणव कुमार	इन्फेंट्री	25 अप्रैल 2010
45652एल	एस के दाउ	इंजीनियर्स	06 नवम्बर 2012
45802 डब्ल्यू	आर एस कण्डवाल	इन्फेंट्री	05 नवम्बर 2013
45841पी	नरेश पैट्रिक	ई एम ई	05 नवम्बर 2013
45870के	शमिक दत्ता	इन्फेंट्री	05 नवम्बर 2013
47073एक्स	संजीव त्यागी	ए एस सी	19 दिसम्बर 2013
47181एफ	एस पी गुप्ता	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47203पी	पी एम बी लाल	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47227वाय	प्रमोद कौशिक	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47268एच	बी आर तिवारी	ए एस सी	19 दिसम्बर 2013
47275वाय	एन एस संघा	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47343एफ	वी बी एस बोरा	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47359एम	अरविन्द कालिया	ई एम ई	19 दिसम्बर 2013
47426एम	ए के पठानिया	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
49383एफ	विजय चौधरी	ई एम ई	20 दिसम्बर 2013
49406एक्स	एस के पाण्डा	ई एम ई	20 दिसम्बर 2013
34618एल	एस रामानुजम	इन्फेंट्री	16 दिसम्बर 2004
44321एक्स	पी वी एस नारायणन	इंजीनियर्स	20 दिसम्बर 2012
45693पी	कृष्णास्वामी	इन्फेंट्री	21 अप्रैल 2013
45819के	के श्रीवास्तव	आर्टी	05 नवम्बर 2013
47066एफ	संजय शर्मा	सिगनल्स	19 दिसम्बर 2013
47124ए	जे एस प्रसाद	ई एम ई	19 दिसम्बर 2013
47245एफ	ए गौतम	ए ओ सी	19 दिसम्बर 2013
47398एल	एस एस राठौर	ए सी	19 दिसम्बर 2013
47401ए	के डी सिंह	ई एम ई	19 दिसम्बर 2013
49413एन	संजय मोहन	इंजीनियर्स	20 दिसम्बर 2013
49414 डब्ल्यू	एस गर्ग	ई एम ई	20 दिसम्बर 2013
44442वाय	संजय मिश्रा	ई एम ई	20 दिसम्बर 2010
44718के	वी रेडडी	ए ओ सी	13 जून 2013
44824एच	ए सुन्दरलाल	ए एस सी	13 जून 2013
45851वाय	एस पी मुखर्जी	आर्टी	05 नवम्बर 2013

47063एन	एस शर्मा	आर्टी	19 दिसम्बर 2013
47077एन	विवेन्द्र सिंह	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47292वाय	आर सेठी	आर्टी	19 दिसम्बर 2013
47434एल	ए एन माथुर	आर्टी	19 दिसम्बर 2013
47435एन	आर जगताप	सिगनल्स	19 दिसम्बर 2013
49408एच	टी एम शिवा	इंजीनियर्स	20 दिसम्बर 2013
टी ए 42234एम	जे एस आनन्द	टी ए	22 दिसम्बर 2013
43754एच	आर एस यादव	इन्फेंट्री	14 जून 2012
44349एक्स	विक्रमजीत गुप्ता	आर्टी	20 दिसम्बर 2012
44788एच	लखविन्दर सिंह	इन्फेंट्री	13 जून 2013
47030एच	वी एम डेट	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47068एम	योगेन्द्र कुमार	ए सी	19 दिसम्बर 2013
47211एन	टी के थापा	ई एम ई	19 दिसम्बर 2013
47234पी	एम एस बाजवा	आर्टी	19 दिसम्बर 2013
47265पी	जी एम चौधरी	इंजीनियर्स	19 दिसम्बर 2013
49401वाय	पी कुकरेती	सिगनल्स	20 दिसम्बर 2013
45584एच	एस जे एस रंधावा	गार्ड्स	22 अप्रैल 2012
45847 डब्ल्यू	ओ पी ओझा	आर्टी	05 नवम्बर 2013
47465एल	संजीव सिंह	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
48454एल	दीपक कुमार	इंजीनियर्स	21 दिसम्बर 2012
48871एक्स	एन एलेनगो राणा पी	ई एम ई	14 जून 2013
43663वाय	निपुण द्विवेदी	मैंक इन्फेंट्री	14 जून 2012
44401पी	जे एस मारवा	आर्टी	20 दिसम्बर 2012
44785पी	टी आनन्द	सिगनल्स	13 जून 2013
44786एक्स	आर के गोसेन	ए ओ सी	13 जून 2013
45690एफ	सुमित कटयाल	इन्फेंट्री	21 अप्रैल 2013
45725एम	पी बोहरा	ए ओ सी	21 अप्रैल 2013
45727एक्स	जोन लुईस राज	इन्फेंट्री	21 अप्रैल 2013
45852एफ	ए आर एस खंडारी	ए एस सी	05 नवम्बर 2013
47282पी	एस नागरथ	ए सी	19 दिसम्बर 2013
43761वाय	एस एस सिद्धू	ए सी	14 जून 2012
44152एफ	आर एस वालिया	ए ए डी	20 दिसम्बर 2012
44726एच	एस एस जामवाल	इन्फेंट्री	13 जून 2013
45466पी	वी शहनी	आर्टी	07 नवम्बर 2011
45716एल	ए एस खत्री	इन्फेंट्री	21 अप्रैल 2013
45744एक्स	वी के वर्मा	सिगनल्स	21 अप्रैल 2013
47052एफ	डी एस यादव	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47216एम	हुमायुन मिर्जा	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013

47251पी	एस वाय जाधव	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47337एन	एस के जी दधानिया	ए ए डी	19 दिसम्बर 2013
47392के	ए मेंहरोत्रा	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47527ए	मंथा नागाराज	इंजीनियर्स	19 दिसम्बर 2011
49371एम	आर एन मौर्या	सिगनल्स	20 दिसम्बर 2013
टी ए-42259एक्स	जे एस बरार	इन्फेंट्री (टी ए)	17 मार्च 2014
42576वाय	शरणजीत सिंह	इन्फेंट्री	15 दिसम्बर 2010
43865ए	एस पाण्डे	इन्फेंट्री	14 जून 2012
44640के	वी के शर्मा	ए एस सी	13 जून 2013
45647ए	अलोक परमार	ए सी	06 नवम्बर 2012
45689एम	एम डी मोन्टी	ए सी	21 अप्रैल 2013
45920के	एस कहोल	आर्टी	22 अप्रैल 2014
45923एक्स	ए चन्देल, एस एम	इन्फेंट्री	22 अप्रैल 2014
45957एल	ए के वशिष्ठा	जैग	22 अप्रैल 2014
45997एम	गुलशन शर्मा	ए ए डी	22 अप्रैल 2014
47348ए	ए गुप्ता	इन्ट	19 दिसम्बर 2013
47396ए	डी के आचार्य	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47409एम	वी के शर्मा	मैंक इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
47468वाय	आर अरुण	आर्टी	19 दिसम्बर 2013
47480ए	एन शर्मा	मैंक इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013
48470एच	सुदर्शना कुमार	इंजीनियर्स	21 दिसम्बर 2012
47311वाय	बसिर अहमद	इन्फेंट्री	19 दिसम्बर 2013

नवीन कुमार
उप निदेशक
एम एस 8ए

सेना शाखा

सं. 283, दिनांक 26 नवम्बर, 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सहर्ष पदोन्नति करने की अनुमति प्रदान करते हैं :-

प्रादेशिक सेना

प्रादेशिक कमीशन

कैप्टन बनाया जाता है

लै0 आकाश दीप	टीए. 42760	(इन्जीनियर टीए)	01 फरवरी 2014
--------------	------------	-----------------	---------------

भारत भूषण जोशी
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 284, दिनांक 27 नवम्बर, 2014—राष्ट्रपति सहाय निम्नलिखित पदोन्नतियाँ करते हैं :-

नियमित सेना

इन्फैन्ट्री

लद्दाख स्काउट्स

सूबेदार मेजर के रैंक में

सूबेदार सेवांग पम्बर (जेसी 588197 के)	01 नवम्बर 2012*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)	
सूबेदार चम्बा रिग्जिन (जेसी 588200 वाई)	01 नवम्बर 2012*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)	
सूबेदार छेरिंग नमग्याल (जेसी 588211 एल)	01 दिसम्बर 2012*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी)	
सूबेदार दोर्जे मोरुप (जेसी 588219 एक्स)	01 जुलाई 2013*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी)	
सूबेदार लोब्जंग ग्याचो (जेसी 588229 एफ)	01 अक्टूबर 2013*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)	
सूबेदार सोनम जोरफेल (जेसी 588230 डब्ल्यू)	01 अक्टूबर 2013*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)	
सूबेदार छेरिंग मुरुप (जेसी 588205 एक्स)	01 नवम्बर 2013*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)	
सूबेदार नवांग नमग्याल (जेसी 588319 एच)	01 मई 2014*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी)	
सूबेदार पदमा संगरुप (जेसी 588261 डब्ल्यू)	01 जुलाई 2014*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी)	
सूबेदार सोनम तर्गोस, वाई एस एम (जेसी 588328 के)	01 जुलाई 2014*
*(सूबेदार मेजर के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी)	

सूबेदार मेजर कर्लक के रैंक में

सूबेदार कर्लक सेरिंग वांगदुस (जेसी 588225 एल)	01 जनवरी 2013*
*(सूबेदार मेजर कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी)	
सूबेदार कर्लक सक्रमा पलजोर (जेसी 588368 एल)	01 फरवरी 2014*
*(सूबेदार मेजर कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी)	

सूबेदार के रैंक में

नायब सूबेदार सेवांग नुरबू (जेसी 588470 एन)	01 अगस्त 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार सेवांग दोर्जे (जेसी 588475 एम)	01 अगस्त 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार सेरिंग वंग्याल (जेसी 588476 पी)	01 अगस्त 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार सेरिंग स्तनजिन (जेसी 588506 एफ)	01 अगस्त 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)	

[illegible]

नायब सूबेदार टाशि मोरुप (जेसी 588504 डब्ल्यू)	01 नवम्बर 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार प्रेम सिंह (जेसी 588533 एल)	01 नवम्बर 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार सेतन नम्गायाल (जेसी 588538 के)	01 नवम्बर 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार मोहम्मद अली (जेसी 588541 के)	01 नवम्बर 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार परम चंद (जेसी 588546 एच)	01 नवम्बर 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार सेवांग दोर्जे (जेसी 588499 डब्ल्यू)	01 दिसम्बर 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार सेरिंग टाशि (जेसी 588513 एक्स)	01 दिसम्बर 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार शिव लाल (जेसी 588556 एम)	01 दिसम्बर 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार प्रेम जीत (जेसी 588551 एन)	01 जनवरी 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार राम लाल (जेसी 588571 एफ)	01 जनवरी 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार कुन्जुंग नम्गायाल (जेसी 588581 एल)	01 जनवरी 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार छेरिंग मुटुप (जेसी 588432 एक्स)	01 फरवरी 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार मोरुप दोर्जे (जेसी 588526 पी)	01 फरवरी 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार नवांग योन्तन (जेसी 588565 एन)	01 फरवरी 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार सेरिंग अंगदुस (जेसी 588507 के)	01 फरवरी 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार लोब्जंग टाशि (जेसी 588509 पी)	01 मार्च 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार मोहम्मद हनिफ (जेसी 588516 एल)	01 मार्च 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार रिन्चेन वंग्याल (जेसी 588436 एन)	01 मार्च 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार कुन्जुंग थिन्लेस (जेसी 588547 एल)	01 मई 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)	

नायब सूबेदार माधो राम (जेसी 588566 डब्ल्यू)	01 मई 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार सोनम पलजोर (जेसी 588514 ए)	01 जून 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार सोनम स्तोभायाल (जेसी 588515 एच)	01 जून 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार गुर्मेत दोर्जे (जेसी 588517 एन)	01 जून 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार सेवांग टाशि (जेसी 588520 एन)	01 जून 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार निर्मल चंद (जेसी 588522 वाई)	01 जून 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार बाघ चंद (जेसी 588523 एफ)	01 जून 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार सेरिंग फुन्चोक (जेसी 588525 एम)	01 जून 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार स्तान्जेन जंग्बो (जेसी 588524 के)	01 जुलाई 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार गुलाम हुसैन (जेसी 588537 एफ)	01 जुलाई 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार छेरिंग मोरुप (जेसी 588540 एफ)	01 जुलाई 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार थिन्लेस सेवांग (जेसी 588555 के)	01 जुलाई 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार सोनम चेस्फल (जेसी 588572 के)	01 जुलाई 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार छेरिंग स्तोब्दन (जेसी 588527 एक्स)	01 अगस्त 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी))	
नायब सूबेदार टाशि अंगदुस (जेसी 588534 एन)	01 अगस्त 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार मेहन्दी खान (जेसी 588544 एक्स)	01 अगस्त 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार सेतन गल्तेन (जेसी 588521 डब्ल्यू)	01 अक्टूबर 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार लछम सिंह (जेसी 588535 एन)	01 अक्टूबर 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार छेरिंग नम्मायाल (जेसी 588557 पी)	01 अक्टूबर 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)	

नायब सूबेदार सोनम फुन्चोक (जेसी 588529 एच)	01 नवम्बर 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार दिनेश कुमार (जेसी 588539 एम)	01 नवम्बर 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार टाशि दोर्जे (जेसी 588553 वाई)	20 नवम्बर 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार नवांग समतन (जेसी 588582 एन)	01 दिसम्बर 2013*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार सेतन फोनसोग (जेसी 588545 ए)	01 मार्च 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार नम्याल दोर्जे (जेसी 588554 एफ)	01 मार्च 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार पदमा रिगजिन (जेसी 588590 एम)	01 मार्च 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार सेरिंग वांगदुस (जेसी 588567 वाई)	01 अप्रैल 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार रिन्चेन जन्गवो (जेसी 588570 वाई)	01 अप्रैल 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार सेरिंग टाशि (जेसी 588586 के)	15 अप्रैल 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार सन्गे पुन्चोक (जेसी 588580 एच)	01 मई 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार सेरिंग अंग्चोक (जेसी 588548 एन)	01 जुलाई 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार सेवांग दोंगेय (जेसी 588607 पी)	01 जुलाई 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2014 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार सेवांग दोंगेय (जेसी 588558 एक्स)	01 अगस्त 2014*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)	
सूबेदार कर्लक के रैंक में	
नायब सूबेदार कर्लक सेतन नम्याल (जेसी 588452 एल)	01 दिसम्बर 2012*
*(सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार कर्लक हबीब उल्लाह वागे (जेसी 588456 एफ)	01 दिसम्बर 2012*
*(सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार कर्लक राजिंदर सिंह राजा (जेसी 588480 एक्स)	01 जनवरी 2013*
*(सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार कर्लक शमशेर सिंह चहल (जेसी 588487 एफ)	01 जनवरी 2013*
*(सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी)	

नायब सूबेदार कर्लक फूमन सिंह (जेसी 588496 एच)	01 फरवरी 2013*
*(सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार कर्लक दविंदर सिंह पठानियों (जेसी 588528 ए)	01 मार्च 2013*
*(सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार कर्लक सेवांग नम्गायाल (जेसी 588530 एक्स)	01 मार्च 2013*
*(सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार कर्लक मिनाकेतन चंदा (जेसी 588550 एल)	01 अप्रैल 2013*
*(सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार कर्लक शिव कुमार सिंह (जेसी 588559 ए)	01 अप्रैल 2013*
*(सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार कर्लक बलराम शर्मा (जेसी 588560 पी)	01 अप्रैल 2013*
*(सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार कर्लक सोनम ग्यालचन (जेसी 588561 एक्स)	01 अप्रैल 2013*
*(सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार कर्लक राधे श्याम (जेसी 588562 ए)	01 मई 2013*
*(सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार कर्लक बीरेंद्र सिंह नेगी (जेसी 588563 एच)	01 मई 2013*
*(सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार कर्लक कुलदीप सिंह (जेसी 588564 एल)	01 जून 2013*
*(सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार कर्लक चरणजीत सिंह (जेसी 588584 वार्ड)	01 अगस्त 2013*
*(सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार कर्लक राजेन्द्र सिंह बस्नल (जेसी 588585 एफ)	01 अक्टूबर 2013*
*(सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार कर्लक सुशील कुमार (जेसी 588596 एन)	01 फरवरी 2014*
*(सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार कर्लक सतीश कुमार (जेसी 588599 एफ)	01 मार्च 2014*
*(सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार कर्लक राजेश कुमार (जेसी 588613 एच)	01 अप्रैल 2014*
*(सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार कर्लक जनक राज (जेसी 588621 एफ)	01 अप्रैल 2014*
*(सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)	
नायब सूबेदार के रैंक में	
हवलदार दोर्जे रफतान (सँ0 9923934 एन अब जेसी 588627 एच)	01 अगस्त 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार पवन कुमार (सँ0 9924098 एफ अब जेसी 588628 एल)	01 अगस्त 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार रिग्जिन मुटुप (सँ0 9924251 एम अब जेसी 588629 एन)	01 अगस्त 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)	

हवलदार रिग्जिन यंगजोर (सँ0 9924277 एफ अब जेसी 588630 एच)	01 अगस्त 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार टाशी अंग्चोक (सँ0 9924193 एन अब जेसी 588631 एल)	01 सितम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार सेतन अंग्चोक (सँ0 9924052 वाई अब जेसी 588632 एन)	01 सितम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार सोनम तार्गेंस (सँ0 9926543 एन अब जेसी 588633 डब्ल्यू)	25 मई 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 25 मई 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार सोनम छोस्दन (सँ0 9923964 एल अब जेसी 588635 एफ)	01 अक्टूबर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार रिग्जिन नुरबू (सँ0 9924057 एक्स अब जेसी 588636 के)	01 अक्टूबर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार पदमा नम्ग्याल(सँ0 9923992 एक्स अब जेसी 588637 एम)	01 अक्टूबर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार सेवांग नम्ग्याल(सँ0 9924086 एम अब जेसी 588638 पी)	01 अक्टूबर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार नारबू गैल्सन(सँ0 9924338 एन अब जेसी 588639 एक्स)	01 अक्टूबर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार सेरिंग मोरुप (सँ0 9924429 एक्स अब जेसी 588640 एम)	01 अक्टूबर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार सोनम स्तोबायास (सँ0 9924482 एच अब जेसी 588642 एक्स)	01 अक्टूबर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार छेमेत रिग्जिन (सँ0 9924533 एल अब जेसी 588643 ए)	15 अक्टूबर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार गिलिक नीमा (9923907 के अब जेसी 588644 एच)	01 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार टुंडुप टाशी (सँ0 9923866 एल अब जेसी 588645 एल)	01 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार टाशी नम्ग्याल (सँ0 9923946 एच अब जेसी 588646 एन)	01 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार नावांग टाशी (सँ0 9923994 एच अब जेसी 588647 डब्ल्यू)	01 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार नम्ग्यालदोर्जे (सँ0 9923927 एक्स अब जेसी 588648 वाई)	01 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार टुंडुप छेस्पल (सँ0 9924032 एल अब जेसी 588649 एफ)	01 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार सेतन पल्जोर (सँ0 9924046 एल अब जेसी 588650 डब्ल्यू)	01 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)	

हवलदार सेवांग टुंडुप (सँ0 9923806 डब्ल्यू अब जेसी 588651 वाई)	01 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार सोनम वांग्याल (सँ0 9924335 ए अब जेसी 588652 एफ)	01 नवम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार सेरिंग टोंडुप (सँ0 9923986 के अब जेसी 588655 पी)	01 दिसम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार थिन्लस नम्याल (सँ0 9924133 वाई अब जेसी 588656 एक्स)	01 दिसम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार सेतन फुन्तसोग (सँ0 9924387 डब्ल्यू अब जेसी 588658 एच)	01 जनवरी 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार सेवांग लुंडोप (सँ0 9924302 पी अब जेसी 588659 एल)	01 जनवरी 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार सेरिंग स्तोब्दन (सँ0 9924581 एल अब जेसी 588660 ए)	01 जनवरी 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार टाशी लुंडुप (सँ0 9927450 एल अब जेसी 588663 एन)	01 फरवरी 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार कोन्चोक सोनम (सँ0 9924451 एच अब जेसी 588664 डब्ल्यू)	01 फरवरी 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार सेवांग गैल्सन (सँ0 9924541 के अब जेसी 588665 वाई)	01 फरवरी 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार पुन्चोक आंग्चुक (सँ0 9924266 पी अब जेसी 588666 एफ)	01 फरवरी 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार सेवांग नोरबु (सँ0 9923898 एन अब जेसी 588669 पी)	01 मार्च 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार छेवांग दोर्जे (सँ0 9924239 एल अब जेसी 588670 के)	01 मार्च 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार सकर्मा नम्याल (सँ0 9923979 एन अब जेसी 588671 एम)	01 मार्च 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार टाशी आंग्चुक (सँ0 9924305 एच अब जेसी 588676 एल)	28 अप्रैल 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 अप्रैल 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार सेवांग दोर्जे (सँ0 9923920 एन अब जेसी 588679 वाई)	01 मई 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार मोहम्मद ईब्राहिम (सँ0 9924404 एल अब जेसी 588680 एन)	01 मई 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार टाशी जांग्बू (सँ0 9924558 एक्स अब जेसी 588681 डब्ल्यू)	01 मई 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार नबांग नोरबु (सँ0 9924014 एच अब जेसी 588682 वाई)	01 मई 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार स्तान्जेन आंग्चोक (सँ0 9924007 एम अब जेसी 588683 एफ)	01 जून 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)	

हवलदार थुगे सोनम (सँ0 9924049 वाई अब जेसी 588684 के)	01 जून 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार सेतन आंग्चुक (सँ0 9924612 ए अब जेसी 588685 एम)	01 जून 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार सोनम फुन्तसोग (सँ0 9924027 ए अब जेसी 588686 पी)	01 जून 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार शाकिर हुसैन (सँ0 9924319 एच अब जेसी 588687 एक्स)	01 जून 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार छेवांग नुरबु (सँ0 9924328 के अब जेसी 588688 ए)	01 जून 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार अफजल साह (सँ0 9924231 वाई अब जेसी 588689 एच)	01 जून 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार सोनम तारगैस (सँ0 9924704 एम अब जेसी 588690 एक्स)	01 जून 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार लोब्जंग स्तान्जिन (सँ0 9924061 ए अब जेसी 588692 एच)	01 जुलाई 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार सेवांग पलजोर (सँ0 9923915 एच अब जेसी 588693 एल)	01 जुलाई 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार सेवांग स्तान्जिन (सँ0 9924067 एफ अब जेसी 588694 एन)	01 जुलाई 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार आंग्चोक दोर्जी, वी एस एम (सँ0 9927425 एम अब जेसी 588695 डब्ल्यू)	01 जुलाई 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार टाशी न्मयाल (सँ0 9924402 ए अब जेसी 588696 वाई)	01 जुलाई 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार पुन्चोक दोर्जे (सँ0 9924150 वाई अब जेसी 588697 एफ)	10 जुलाई 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जुलाई 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार सेवांग गैल्सन (सँ0 9924280 एफ अब जेसी 588698 के)	01 अगस्त 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार सेरिंग टोन्डुप (सँ0 9924351 एक्स अब जेसी 588699 एम)	01 अगस्त 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार संगे मुटुप (सँ0 9924011 पी अब जेसी 588700 डब्ल्यू)	01 अगस्त 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार सोनम आंग्चोक (सँ0 9924358 एफ अब जेसी 588703 के)	01 अक्टूबर 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार सेवांग फुन्तसोग (सँ0 9924254 ए अब जेसी 588704 एम)	01 अक्टूबर 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार थुकजे टोन्दन (सँ0 9924343 वाई अब जेसी 588705 पी)	01 अक्टूबर 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार टाशी वन्ग्याल (सँ0 9924379 एक्स अब जेसी 588706 एक्स)	01 नवम्बर 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)	

हवलदार सेवांग दोर्जन (सँ0 9924040 के अब जेसी 588707 ए)	01 नवम्बर 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार सेरिंग नम्गायाल (सँ0 9924200 वाई अब जेसी 588708 एच)	20 नवम्बर 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 20 नवम्बर 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार फुन्तसोग दोर्जे (सँ0 9924056 पी अब जेसी 588709 एल)	01 दिसम्बर 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार राजीन्द्र सिंह बोध (सँ0 9924091 एक्स अब जेसी 588710 ए)	01 दिसम्बर 2013*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार थिन्लेस गोन्बो (सँ0 9924241 एच अब जेसी 588711 एच)	01 जनवरी 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2014 से दी जायेगी)	
हवलदार रिन्चेन आंगचोक (सँ0 9924462 पी अब जेसी 588712 एल)	10 जनवरी 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 जनवरी 2014 से दी जायेगी)	
हवलदार टाशी नोरफेल (सँ0 9924022 एफ अब जेसी 588715 वाई)	01 मार्च 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी)	
हवलदार सेवांग नम्गायाल (सँ0 9924440 डब्ल्यू अब जेसी 588716 एफ)	01 मार्च 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी)	
हवलदार सेरिंग दोर्जे (सँ0 9924113 एल अब जेसी 588717 के)	01 मार्च 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी)	
हवलदार थुब्रतान छुलटिम (सँ0 9924051 डब्ल्यू अब जेसी 588721 एम)	01 अप्रैल 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)	
हवलदार सोनम दोर्जे (सँ0 9924185 पी अब जेसी 588722 पी)	01 अप्रैल 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)	
हवलदार फुन्चोक दोर्जे (सँ0 9924283 पी अब जेसी 588724 ए)	01 अगस्त 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2014 से दी जायेगी)	
नायब सुबेदार कर्लक के रैंक में	
हवलदार कर्लक संजय कुमार पानीग्रही (सँ0 9924552 डब्ल्यू अब जेसी 588634 वाई)	01 जुलाई 2012*
*(नायब सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार कर्लक हरीहर चौबे (सँ0 9924472 वाई अब जेसी 588653 के)	01 दिसम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार कर्लक दावा सेरिंग (सँ0 9924628 एल अब जेसी 588654 एम)	01 दिसम्बर 2012*
*(नायब सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी)	
हवलदार कर्लक शमशेर सिंह (सँ0 9924553 वाई अब जेसी 588657 ए)	01 जनवरी 2013*
*(नायब सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार कर्लक बन्नी नाथ यादव (सँ0 6390215 एफ अब जेसी 588661 एच)	01 फरवरी 2013*
*(नायब सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार कर्लक राकेश कुमार (सँ0 9924394 एम अब जेसी 588662 एल)	01 फरवरी 2013*
*(नायब सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार कर्लक संजीव कुमार (सँ0 9924555 के अब जेसी 588667 के)	01 मार्च 2013*
*(नायब सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार कर्लक कृष्ण लाल (सँ0 9924629 एल अब जेसी 588668 एम)	01 मार्च 2013*
*(नायब सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी)	

हवलदार कर्लक स्तान्जिन ग्यात्सो (सँ0 9924630 एच अब जेसी 588672 पी)	01 अप्रैल 2013*
*(नायब सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार कर्लक मोहम्मद शरीफ (सँ0 9924663 एन अब जेसी 588673 एक्स)	01 अप्रैल 2013*
*(नायब सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार कर्लक बलबीर सिंह (सँ0 9924664 डब्ल्यू अब जेसी 588674 ए)	01 अप्रैल 2013*
*(नायब सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार कर्लक रिन्चेन टाशी (सँ0 9924690 एक्स अब जेसी 588675 एच)	01 अप्रैल 2013*
*(नायब सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार कर्लक भारत भूषण सिंह (सँ0 9924745 डब्ल्यू अब जेसी 588677 एन)	01 मई 2013*
*(नायब सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार कर्लक रवी कुमार (सँ0 9924746 वाई अब जेसी 588678 डब्ल्यू)	01 मई 2013*
*(नायब सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार कर्लक राज कुमार (सँ0 9924783 एम अब जेसी 588691 ए)	01 जून 2013*
*(नायब सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार कर्लक प्रदीप कुमार सिंह (सँ0 9924789 एन अब जेसी 588701 वाई)	01 अगस्त 2013*
*(नायब सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार कर्लक जय किशोर मिश्रा (सँ0 9924744 एन अब जेसी 588702 एफ)	01 अक्टूबर 2013*
*(नायब सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2013 से दी जायेगी)	
हवलदार कर्लक कमलेश कुमार राणा (सँ0 9924692 एच अब जेसी 588713 एन)	26 जनवरी 2014*
*(नायब सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 26 जनवरी 2014 से दी जायेगी)	
हवलदार कर्लक टुन्डुप टाशी (सँ0 9924759 डब्ल्यू अब जेसी 588714 डब्ल्यू)	01 फरवरी 2014*
*(नायब सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2014 से दी जायेगी)	
हवलदार कर्लक टाशीदोर्जे (सँ0 9924763 वाई अब जेसी 588718 एम)	01 मार्च 2014*
*(नायब सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी)	
हवलदार कर्लक महिन्द्र कुमार (सँ0 9924913 के अब जेसी 588723 एक्स)	01 अप्रैल 2014*
*(नायब सूबेदार कर्लक के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)	
नायब सुबेदार (धर्मशिक्षक) के रैंक में	
नायब सुबेदार (आर टी) गेनयेन फुन्तसोक (सँ0 588641पी अब जे सी 588641पी)	02 मार्च 2013*
*(नायब सूबेदार (आर टी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 मार्च 2013 से दी जायेगी)	
राईफलमैन आफताब अहमद खान (सँ0 2700936 एफ अब जे सी 588719 पी)	29 मार्च 2014*
*(नायब सूबेदार (आर टी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 मार्च 2014 से दी जायेगी)	
नायब सुबेदार (आर टी) हफिज अहमद (सँ0 588720 के अब जे सी 588720 के)	29 मार्च 2014*
*(नायब सूबेदार (आर टी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 मार्च 2014 से दी जायेगी)	
नायब सुबेदार (आर टी) मोहम्मद सकिलुर रहमान अंसारी (सँ0 588725 एच अब जे सी 588725 एच)	28 जून 2014*
*(नायब सूबेदार (आर टी) के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 28 जून 2014 से दी जायेगी)	

जाट रेजिमेंट		
सूबेदार के रैंक में		
नायब सूबेदार अजीत सिंह	(जेसी-490299 के)	01 जुलाई 2012
नायब सूबेदार जगमोहन लाल	(जेसी-490304 के)	03 सितम्बर 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार ब्रह्म राज सिंह	(जेसी-490409 एन)	01 जुलाई 2012
नायब सूबेदार विक्रमसिंह तोमर	(जेसी-490574 वाई)	01 जुलाई 2012
नायब सूबेदार जय भगवान	(जेसी-490605 एन)	02 जुलाई 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2012 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह	(जेसी-490091 एफ)	30 अगस्त 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार प्रभाति लाल	(जेसी-490171 वाई)	31 अगस्त 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सत्यवीर	(जेसी-490280 एल)	01 अगस्त 2012
नायब सूबेदार बिजेन्द्र सिंह	(जेसी-490294 एल)	01 अगस्त 2012
नायब सूबेदार ऋषिपाल	(जेसी-490300 एन)	01 अगस्त 2012
नायब सूबेदार वीरपाल	(जेसी-490310 एक्स)	17 अक्टूबर 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अगस्त 2012 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार राम लाल	(जेसी-490311 ए)	01 अगस्त 2012
नायब सूबेदार गजेन्द्र सिंह	(जेसी-490318 के)	01 अगस्त 2012
नायब सूबेदार राय सिंह	(जेसी-490323 पी)	01 अगस्त 2012
नायब सूबेदार रणवीर सिंह	(जेसी-490361 एल)	01 अगस्त 2012
नायब सूबेदार भगवान सिंह	(जेसी-490362 एन)	01 अगस्त 2012
नायब सूबेदार दाना राम	(जेसी-490191 एम)	08 अगस्त 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 अगस्त 2012 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार सतेन्द्र सिंह	(जेसी-490234 डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2012
नायब सूबेदार करनी राम	(जेसी-490239 पी)	01 सितम्बर 2012
नायब सूबेदार महेन्द्र सिंह सुहाग	(जेसी-490355 एक्स)	01 सितम्बर 2012
नायब सूबेदार नरेन्द्र सिंह	(जेसी-490357 एच)	01 सितम्बर 2012
नायब सूबेदार तारा चन्द	(जेसी-490334 एफ)	01 सितम्बर 2012
नायब सूबेदार मूला राम चौधरी	(जेसी-490350 वाई)	01 सितम्बर 2012
नायब सूबेदार करतार चन्द	(जेसी-490451 एम)	29 सितम्बर 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार देवेन्द्र कुमार	(जेसी-490461 डब्ल्यू)	01 सितम्बर 2012
नायब सूबेदार अशोक कुमार	(जेसी-490546 एम)	11 सितम्बर 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जायेगी)		
नायब सूबेदार मूल चन्द	(जेसी-490547 पी)	01 सितम्बर 2012
नायब सूबेदार ओमवीर सिंह	(जेसी-490172 एफ)	01 अक्टूबर 2012
नायब सूबेदार होशियार सिंह	(जेसी-490278 एन)	01 अक्टूबर 2012
नायब सूबेदार राजेश कुमार	(जेसी-490281 एन)	01 अक्टूबर 2012

नायब सूबेदार	रणवीर सिंह	(जेसी-490329 डब्ल्यू)	06 नवम्बर 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	तारा चन्द	(जेसी-490505 एच)	10 नवम्बर 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	ललबीर	(जेसी-490518 ए)	01 अक्टूबर 2012
नायब सूबेदार	राज कुमार सिंह	(जेसी-490575 एफ)	19 दिसम्बर 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार	राज कुमार	(जेसी-490576 के)	01 अक्टूबर 2012
नायब सूबेदार	राजेन्द्र प्रसाद	(जेसी-490343 एच)	23 नवम्बर 2012*
*(सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 06 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी)			
नायब सूबेदार के रैंक में			
हवलदार	ओम प्रकाश	(सं. 3200273 पी अब जेसी-491126 वाई)	16 मई 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अक्टूबर 2011 से दी जायेगी)			
हवलदार	बलबीर सिंह	(सं. 3185371 पी अब जेसी-491127 एफ)	12 मई 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	राजेश कुमार	(सं. 3185366 के अब जेसी-491128 के)	23 जून 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	अजय कुमार	(सं. 3187163 वाई अब जेसी-491129 एम)	28 मई 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	बिजेन्द्र सिंह	(सं. 3185467 एक्स अब जेसी-491130 एफ)	23 जून 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	हरी सिंह गुर्जर	(सं. 3184885 ए अब जेसी-491131 के)	14 जून 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	शिवनाथ सिंह	(सं. 3184989 एफ अब जेसी-491132 एम)	20 जून 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	गुलवीर सिंह	(सं. 3185391 एच अब जेसी-491133 पी)	20 जून 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	नन्दा राम	(सं. 3184964 पी अब जेसी-491134 एक्स)	05 जुलाई 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	राजवीर सिंह	(सं. 3185922 पी अब जेसी-491135 ए)	01 जून 2014
हवलदार	जयबीर सिंह	(सं. 3185472 एच अब जेसी-491136 एच)	01 जून 2014
हवलदार	मुकेश	(सं. 3186022 एक्स अब जेसी-491137 एल)	10 जून 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	महेन्द्र सिंह	(सं. 3186028 वाई अब जेसी-491138 एन)	25 जून 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	चौ ऋषिपाल सिंह नादर	(सं. 3186120 एक्स अब जेसी-491139 डब्ल्यू)	26 जून 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)			

हवलदार	सुभाष चन्द	(सं. 3188002 एच अब जेसी-491140 एल)	23 जून 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	राजेन्द्र सिंह	(सं. 3187091 ए अब जेसी-491141 एन)	23 जून 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	सुरेश पाल	(सं. 3185836 के अब जेसी-491142 डब्ल्यू)	23 जून 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	चन्दन सिंह	(सं. 3186866 एन अब जेसी-491143 वाई)	01 जून 2014
हवलदार	राम निवास शर्मा	(सं. 3186925 पी अब जेसी-491144 एफ)	01 जून 2014
हवलदार	चरण सिंह	(सं. 3187207 एल अब जेसी-491145 के)	12 जून 2014*
*(नायब सूबेदार के रैंक में वेतन और भत्तों पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2014 से दी जायेगी)			
हवलदार	सतीश कुमार	(सं. 3187613 एल अब जेसी-491146 एम)	01 जुलाई 2014
हवलदार	सतीश कुमार	(सं. 3187650 वाई अब जेसी-491147 पी)	01 जुलाई 2014
हवलदार लिपिक	बालाकृष्ण प्रधान	(सं. 4187295 एच अब जेसी-491148 एक्स)	01 जुलाई 2014
सिख लाईट इन्फैन्ट्री			
नायब सूबेदार : जी0 डी0 के रैंक में			
हवलदार	परमजीत राम	(4470714 एक्स अब जे सी-510252 एच)	01 जनवरी 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2012 से दी जायेगी।			
हवलदार	नरिन्दर सिंह	(4470370 के अब जे सी-510253 एल)	11 दिसम्बर 2012*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 14 मई 2012 से दी जायेगी।			
हवलदार	दर्शन सिंह	(4469409 वाई अब जे सी-510254 एन)	11 दिसम्बर 2012*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2012 से दी जायेगी।			
हवलदार	सुखमिन्दर सिंह	(4469459 के अब जे सी-510255 डब्ल्यू)	04 दिसम्बर 2012*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 02 जुलाई 2012 से दी जायेगी।			
हवलदार	मित्तर पाल	(4469853 पी अब जे सी-510256 वाई)	11 दिसम्बर 2012*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जायेगी।			
हवलदार	कुलदीप सिंह	(4471051 के अब जे सी-510257 एफ)	17 दिसम्बर 2012*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 19 सितम्बर 2012 से दी जायेगी।			
हवलदार	दर्शन सिंह	(4469429 एम अब जे सी-510258 के)	01 जनवरी 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी।			
हवलदार	बलवीर सिंह	(4470815 एल अब जे सी-510259 एम)	01 जनवरी 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी।			
हवलदार	सोहन सिंह	(4470550 एम अब जे सी-510260 एफ)	26 नवम्बर 2012*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी।			
हवलदार	निर्मल सिंह	(4469385 ए अब जे सी-510261 के)	04 दिसम्बर 2012*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी।			
हवलदार	निर्मल सिंह	(4471191 डब्ल्यू अब जे सी-510262 एम)	16 जनवरी 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी।			
हवलदार	नरिन्दर सिंह	(4471485 के अब जे सी-510263 पी)	11 दिसम्बर 2012*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी।			
हवलदार	परमजीत सिंह	(4470229 एच अब जे सी-510264 एक्स)	31 दिसम्बर 2012*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी।			

हवलदार गुलजार सिंह	(4470391 ए अब जे सी—510265 ए)	05 जनवरी 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी।		
हवलदार मेल सिंह	(4469370 एक्स अब जे सी—510268 एन)	02 फरवरी 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 31 मार्च 2012 से दी जायेगी।		
हवलदार लक्ष्मण सिंह	(4470090 डब्ल्यू अब जे सी—510269 डब्ल्यू)	09 अक्टूबर 2012*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 अगस्त 2012 से दी जायेगी।		
हवलदार अवतार सिंह	(4470253 वाई अब जे सी—510270 एल)	04 फरवरी 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 सितम्बर 2012 से दी जायेगी।		
हवलदार राम सिंह	(4470560 डब्ल्यू अब जे सी—510271 एन)	26 फरवरी 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अक्टूबर 2012 से दी जायेगी।		
हवलदार पलविन्दर सिंह	(4471379 एल अब जे सी—510272 डब्ल्यू)	05 फरवरी 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी।		
हवलदार जसपाल सिंह	(4472635 एफ अब जे सी—510273 वाई)	02 फरवरी 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 नवम्बर 2012 से दी जायेगी।		
हवलदार लखबीर सिंह	(4470597 एक्स अब जे सी—510274 एफ)	15 जनवरी 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी।		
हवलदार लखबीर सिंह	(4471227 के अब जे सी—510275 के)	13 मार्च 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी।		
हवलदार जोगिन्दर सिंह	(4471228 एम अब जे सी—510276 एम)	01 फरवरी 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी।		
हवलदार हरनेक सिंह	(4472178 वाई अब जे सी—510277 पी)	13 मार्च 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी।		
हवलदार मेजर सिंह	(4471997 डब्ल्यू अब जे सी—510278 एक्स)	21 मार्च 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी।		
हवलदार जगमोहन सिंह	(4472474 के अब जे सी—510279 ए)	22 जनवरी 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी।		
हवलदार रेशम सिंह	(4470608 वाई अब जे सी—510280 पी)	03 फरवरी 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी।		
हवलदार परमजीत सिंह	(4470143 के अब जे सी—510281 एक्स)	22 फरवरी 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 27 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी।		
हवलदार कश्मीर सिंह	(4470823 के अब जे सी—510282 ए)	30 जनवरी 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी।		
हवलदार जगजीत सिंह	(4471908 एम अब जे सी—510283 एच)	19 फरवरी 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 30 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी।		
हवलदार तरसेम सिंह	(4472678 डब्ल्यू अब जे सी—510284 एल)	15 जनवरी 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार कुलवंत सिंह	(4470713 पी अब जे सी—510285 एन)	01 फरवरी 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार मेवा सिंह	(4470092 एफ अब जे सी—510286 डब्ल्यू)	23 फरवरी 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार रोशन सिंह	(4470694 पी अब जे सी—510287 वाई)	23 फरवरी 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 जनवरी 2013 से दी जायेगी।		

हवलदार बिकर सिंह	(4472911 वाई अब जे सी-510288 एफ)	17 फरवरी 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 15 जनवरी 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार जगमेल सिंह	(4470742 के अब जे सी-510290 वाई)	01 फरवरी 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार चतिन सिंह	(4470743 एम अब जे सी-510291 एफ)	02 फरवरी 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार यादविन्दर सिंह	(4472919 एल अब जे सी-510292 के)	16 मार्च 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार लखविन्दर सिंह	(4472467 एन अब जे सी-510293 एम)	11 मार्च 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 12 फरवरी 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार रमेश सिंह	(4469661 एक्स अब जे सी-510294 पी)	08 मार्च 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 17 फरवरी 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार गुरसेवक सिंह	(4470765 एल अब जे सी-510297 एच)	09 मार्च 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार सुखवीरपाल सिंह	(4469958 वाई अब जे सी-510298 एल)	09 मार्च 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार जसपाल सिंह	(4471113 वाई अब जे सी-510299 एन)	01 मार्च 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार जरनैल सिंह	(4471477 एल अब जे सी-510300 एक्स)	01 मार्च 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार जसवंत सिंह	(4472145 एन अब जे सी-510301 ए)	01 मार्च 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार मंजीत सिंह	(4470207 के अब जे सी-510302 एच)	01 मार्च 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार बलविंदर सिंह	(4471966 डब्ल्यू अब जे सी-510303 एल)	09 अप्रैल 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 नवम्बर 2012 से दी जायेगी।		
हवलदार सतपाल सिंह	(4270987 डब्ल्यू अब जे सी-510304 एन)	06 अप्रैल 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 11 नवम्बर 2012 से दी जायेगी।		
हवलदार रोशन सिंह	(4472468 डब्ल्यू अब जे सी-510305 डब्ल्यू)	03 अप्रैल 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी।		
हवलदार जसविंदर सिंह	(4470435 एम अब जे सी-510306 वाई)	21 मार्च 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 16 जनवरी 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार सुरिंदर सिंह	(4471568 पी अब जे सी-510307 एफ)	27 मार्च 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 23 जनवरी 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार कुलविंदर सिंह	(4472224 एच अब जे सी-510308 के)	02 अप्रैल 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार सूरत सिंह	(4471092 एन अब जे सी-510309 एम)	16 मार्च 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार इकबाल सिंह	(4474266 एन अब जे सी-510310 एफ)	18 मार्च 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी।		

[illegible]

हवलदार हरजीत सिंह	(4471818 एल अब जे सी-510336 डब्ल्यू)	04 मई 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 29 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी।		
हवलदार नरिंदर सिंह	(4473882 एफ अब जे सी-510337 वाई)	17 मई 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार गुरुमुख सिंह	(4274867 पी अब जे सी-510338 एफ)	03 जून 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार परविंदर सिंह	(4470868 के अब जे सी-510339 के)	02 मई 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 मार्च 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार शमसेर सिंह	(4470305 के अब जे सी-510341 एफ)	21 अप्रैल 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 04 अप्रैल 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार परगट सिंह	(4470654 एन अब जे सी-510342 के)	17 मई 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार बलजीत सिंह	(4470788 एम अब जे सी-510343 एम)	11 मई 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार गुरनाम सिंह	(4471491 एक्स अब जे सी-510344 पी)	11 मई 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार कुलवंत सिंह	(4471949 डब्ल्यू अब जे सी-510345 एक्स)	11 मई 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 10 अप्रैल 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार गुरतेज सिंह	(4470914 एन अब जे सी-510346 ए)	09 मई 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 24 अप्रैल 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार सुचा सिंह	(4471205 एल अब जे सी-510347 एच)	20 मई 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 05 मई 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार गुरनाम सिंह	(4473069 वाई अब जे सी-510350 एच)	12 जुलाई 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 दिसम्बर 2012 से दी जायेगी।		
हवलदार बलविंदर सिंह	(4472164 वाई अब जे सी-510351 एल)	06 जुलाई 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार सोहन सिंह	(4472102 वाई अब जे सी-510352 एन)	06 जुलाई 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार हरमेल सिंह	(4472465 एच अब जे सी-510353 डब्ल्यू)	06 जुलाई 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार गुरदीप सिंह	(4472475 एम अब जे सी-510354 वाई)	19 जुलाई 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मई 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार बलजीत सिंह	(4471173 एन अब जे सी-510357 एम)	29 जून 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार मनोहर सिंह	(4470359 एल अब जे सी-510358 पी)	01 जुलाई 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार जगसीर सिंह	(4471299 एन अब जे सी-510359 एक्स)	01 जुलाई 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार प्रीतपाल सिंह	(4472525 एम अब जे सी-510360 एम)	28 जून 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार अमरीक सिंह	(4471927 एक्स अब जे सी-510361 पी)	11 जुलाई 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 07 जून 2013 से दी जायेगी।		

हवलदार राजबीर सिंह	(4472744 एन अब जे सी-510362 एक्स)	18 जुलाई 2013*
नायब सूबेदार (जी0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जुलाई 2013 से दी जायेगी।		
नायब सूबेदार (क्लर्क) एस0 डी0 के रैंक में		
हवलदार(क्लर्क) जया कुमार एस	(4471041 ए अब जे सी-510266 एच)	01 जनवरी 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार(क्लर्क) गोपाल घटानी	(4468990 एफ अब जे सी-510267 एल)	01 जनवरी 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जनवरी 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार(क्लर्क) विजया कुमार वी वी	(4469690 एम अब जे सी-510289 के)	01 फरवरी 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 फरवरी 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार(क्लर्क) जोन्सन के ओम्मेन	(4471045 डब्ल्यू अब जे सी-510295 एक्स)	22 मार्च 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार(क्लर्क) रविंदर सिंह	(4471031 डब्ल्यू अब जे सी-510296 ए)	01 मार्च 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 मार्च 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार(क्लर्क) टी लोयोला सन्थाना सोरीराज	(4471260 एफ अब जे सी-510320 एल)	01 अप्रैल 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार(क्लर्क) कुलदीप सिंह	(4471409 एक्स अब जे सी-510321 एन)	01 अप्रैल 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार(क्लर्क) मुन्ना भरद्वाज	(4471644 डब्ल्यू अब जे सी-510322 डब्ल्यू)	01 अप्रैल 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार(क्लर्क) देबासीश चौधरी	(4469700 एल अब जे सी-510323 वाई)	01 अप्रैल 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार(क्लर्क) जी अमला दास	(4471317 एल अब जे सी-510324 एफ)	01 अप्रैल 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार(क्लर्क) सलीम खान	(4471727 एफ अब जे सी-510340 वाई)	01 अप्रैल 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 अप्रैल 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार(क्लर्क) पाटील सुभाष गोविन्द	(4471753 एच अब जे सी-510348 एल)	01 जून 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार(क्लर्क) राकेश सिंह जादौन	(4472098 एफ अब जे सी-510349 एन)	01 जून 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार(क्लर्क) शुबेग सिंह	(4471767 एच अब जे सी-510355 एफ)	18 जून 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी।		
हवलदार(क्लर्क) अदल सिंह चाहर	(4472823 एच अब जे सी-510356 के)	27 जून 2013*
नायब सूबेदार (क्लर्क)(एस0 डी0) के रैंक में वेतन और भत्ते पर प्रभाव डाले बिना ज्येष्ठता 01 जून 2013 से दी जायेगी।		

जम्मू और काश्मीर राईफल्स

नायब सूबेदार धर्मशिक्षक के रैंक में

नायब सूबेदार आर टी ईस्लामुद्दिन	जेसी-579559वाई	जैक राईफल्स	01 फरवरी 2014
---------------------------------	----------------	-------------	---------------

वी एन रवीन्द्रन
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 285, दिनांक 27 नवम्बर, 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को अपना पद छोड़ने पर रैंक बनाये रखने और वर्दी पहनने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

त्यागपत्र

मेजर एच अमरवीर सिंह

(टीए-42599)

(इन्फैन्ट्री)

01 मई 2014

भारत भूषण जोशी
अवर सचिव

सेना शाखा

सं. 286, दिनांक 28 नवम्बर, 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारी को सेवानिवृत्त होने पर अपना रैंक बनाये रखने और वर्दी पहनने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

सेवानिवृत्ति

कर्नल राकेश मेहता

(टीए-41955)

(इन्फैन्ट्री)

30 अप्रैल 2014

भारत भूषण जोशी
अवर सचिव

सं. 287, दिनांक 28 नवम्बर, 2014—राष्ट्रपति निम्नलिखित अधिकारियों को प्रादेशिक सेना से बर्खास्त करने की अनुमति प्रदान करते हैं :—

प्रादेशिक सेना

बर्खास्त किया जाता है

लै0 कर्नल चन्जीव सिंह	टीए(एम)-1159	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
लै0 कर्नल सिद्धार्थ नियोगी	टीए(एम)-1163	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
लै0 कर्नल आर के गुप्ता	टीए(एम)-1176	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
लै0 कर्नल संजीव कुमार भूयान	टीए(एम)-1187	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
लै0 कर्नल राजेश शर्मा	टीए(एम)-1196	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
लै0 कर्नल अनू भण्डारी	टीए(एम)-1197	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
मेजर अभिजीत डे	टीए(एम)-1205	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
मेजर अमृत पाल सिंह	टीए(एम)-1207	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
मेजर आर ए सोलंकी	टीए(एम)-1210	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
मेजर रामें तालुकदार	टीए(एम)-1211	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
कैप्टन कमल अग्रवाल	टीए(एम)-1217	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
कैप्टन सन्त प्रकाश कटारिया	टीए(एम)-1218	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
कैप्टन एम जे माकवाना	टीए(एम)-1225	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
कैप्टन आर जी चौधरी	टीए(एम)-1226	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)

कैप्टन हिमांशु सी पंचल	टीए(एम)—1227	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
मेजर छाया रानी आस्टिन	टीए(एन)—1086	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
मेजर अमरजीत कौर	टीए(एन)—1092	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
मेजर हमेश्वरी भूयान	टीए(एन)—1096	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
कैप्टन अनुपमा दत्ता	टीए(एन)—1097	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
मेजर ममता सचान	टीए(एन)—1098	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
कैप्टन कमलेश अहलावत	टीए(एन)—1099	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
कैप्टन शोभा रानी	टीए(एन)—1100	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
कैप्टन तजेन्दर कौर अहलूवालिया	टीए(एन)—1101	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
कैप्टन आशा रानी	टीए(एन)—1106	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
कैप्टन गीतूमोनी कोंवर	टीए(एन)—1109	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
कैप्टन दीपान्जली कलिता	टीए(एन)—1110	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
लै0 वी बी सिकेदार	टीए(एन)—1111	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
कैप्टन पिकी ईसाक	टीए(एन)—1112	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
कैप्टन एलिजाबेथ लाल	टीए(एन)—1113	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
कैप्टन शाह इकबाल फातिमा	टीए(एन)—1114	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
कैप्टन सविता जोशी	टीए(एन)—1115	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
कैप्टन जे एस भारद्वाज	टीए(एन टी)—1215	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)
कैप्टन वी डी भारद्वाज	टीए(एन टी)—1216	(ए0एम0सी टीए)	13 फरवरी 2014(अप0)

भारत भूषण जोशी
अवर सचिव

(वायु शाखा)

सं. 288, दिनांक 1 दिसम्बर 2014—राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित अफसर को उसके सामने दी गयी तिथि से उड़ान (पायलट) से प्रशासनिक शाखा में स्थानान्तरित करते हैं। इस शाखा में उनकी समायोजित वरिष्ठता उसी प्रकार मानी जाएगी मानो उसे मूल कमीशन ही प्रशासनिक शाखा में प्राप्त हुआ हो। अफसर को वायुसेना सूची में फ्लाइट लेफ्टिनेंट बी एस राजा सेखर (31813) प्रशासनिक व फ्लाइट लेफ्टिनेंट कमल कुमार मिश्रा (32138) प्रशासनिक के मध्य रखा जाएगा। अफसर को उड़ान प्रशिक्षण से निलंबित होने के कारण दिनांक 14 अक्टूबर 2011 से उड़ान भत्ते का हकदार नहीं होगा। वा. से. मु./20901/31798/पीओ-3(ई) दिनांक 17 जुलाई 2012 तथा 26 मार्च 2014।

फ्लाइट अफसर श्रीकांत मडगी (31798) उड़ान (पायलट) से

प्रशासनिक शाखा में दिनांक 14 अक्टूबर 2011 से.

राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित अफसर को उसके सामने दी गयी तिथि से उड़ान (पायलट) से प्रशासनिक शाखा में स्थानान्तरित करते हैं। इस शाखा में उनकी समायोजित वरिष्ठता उसी प्रकार मानी जाएगी मानो उसे मूल कमीशन ही प्रशासनिक शाखा में प्राप्त हुआ हो। अफसर को वायुसेना सूची में फ्लाइट लेफ्टिनेंट डी एस सरवारा (30000) प्रशासनिक व फ्लाइट लेफ्टिनेंट एस के झा (30225) प्रशासनिक के मध्य रखा जाएगा। अफसर को 12 अगस्त 2011 से स्थायी निम्न उड़ान अयोग्य चिकित्सा श्रेणी में पाये जाने की वजह से उसी दिन से उड़ान भत्ते का हकदार नहीं होगा। वा. से. मु./20901/29954/पीओ.3(ई) दिनांक 24 सितम्बर 2012।

फ्लाईंग अफसर विशाल कुंडाल (29954) उड़ान (पायलट) से

प्रशासनिक शाखा में दिनांक 12 अगस्त 2011

राष्ट्रपति महोदय, निम्नलिखित अफसर को उसके सामने दी गयी तिथि से उड़ान (पायलट) से प्रशासनिक शाखा में स्थानान्तरित करते हैं। इस शाखा में उनकी समायोजित वरिष्ठता उसी प्रकार मानी जाएगी मानो उसे मूल कमीशन ही प्रशासनिक शाखा में प्राप्त हुआ हो। अफसर को वायुसेना सूची में स्क्वाड्रन लीडर आर वर्मा (27005) प्रशासनिक व स्क्वाड्रन लीडर पी वाम्सी कृष्णा (27242) प्रशासनिक के मध्य रखा जाएगा। अफसर को 30 अप्रैल 2013 से स्थायी निम्न उड़ान अयोग्य चिकित्सा श्रेणी में पाये जाने की वजह से उसी दिन से उड़ान भत्ते का हकदार नहीं होगा। वा. से. मु./20901/26999/पीओ.3(ई) दिनांक 30 दिसम्बर 2013।

स्क्वाड्रन लीडर पंकज श्रीकृष्ण बाब्डे (26999) उड़ान (पायलट) से

प्रशासनिक शाखा में दिनांक 30 अप्रैल 2013

एस के खनूजा
विंग कमांडर
जेडीपीओ-3(ई)

MINISTRY OF DEFENCE

New Delhi, the 13th December 2014

ARMY BRANCH

No. 280, dated 25th November 2014—The President is pleased to make the following appointments under the provision of SAI 7/S/66 as amended :-

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

The under mentioned Short Service Commissioned Officer has been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 06 Sep 2013, on relinquishing his Short Service Commission wef 06 Sep 2013 :-

Ser No	SS No	IC No	Name	Arms/Services
(a)	SS-40249P	IC-65901A	PARVIT KUMAR SIWACH	EME
(b)	SS-40261W	IC-65904N	VIKRAM BIRRA	EME

The date of seniority in respect of above mentioned officer will be as follows:-

- (i) The date for increments of pay - 06 Nov 2001
- (ii) The date for promotion - 06 Nov 2001

The inter-se-seniority, vis-à-vis the above mentioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission in the 10th years of service, of SSC-19(Tech) Course, will remain same as allocated in Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The under mentioned Short Service Commissioned Officer has been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 20 Mar 2014, on relinquishing his Short Service Commission wef 20 Mar 2014 :-

Ser No	SS No	IC No	Name	Arms/Services
(a)	SS-40508M	IC-66035W	VISHAL ARORA	EME
(b)	SS-40509P	IC-66036Y	RAVI PRAKASH	EME
(c)	SS-40526P	IC-66043P	ANUJA KUMAR ACHARYA	ENGRS

The date of seniority in respect of above mentioned officer will be as follows:-

- (i) The date for increments of pay - 20 Apr 2002
- (ii) The date for promotion - 20 Apr 2002

The inter-se-seniority, vis-à-vis the above mentioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission in the 10th years of service, of SSC-20(Tech) Course, will remain same as allocated in Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The President is pleased to make the following appointments under the provision of SAI 3/S/70 as amended :-

REGULAR ARMY
PERMANENT COMMISSION

The under mentioned Short Service Commissioned Officer has been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 07 September 2012, on relinquishing his Short Service Commission wef 07 September 2012 :-

Ser No	SS No	IC No allotted	Name	Arms/Services
(a)	SS-39925M	IC-65757W	MEHREESH KATARIA	INF

The dates to be considered in respect of above mentioned officer in regular commission will be as follows :-

- (a) Date for increments of pay - 07 Sep 2002
- (b) Date of seniority for promotion - 07 May 2003

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 10 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The under mentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 08 Mar 2013, on relinquishing their Short Service Commission wef 08 Mar 2013 :-

Ser No	SS No	IC No allotted	Name	Arms/Services
(a)	SS-40008P	IC-65812F	CHARANJEET SINGH SANDHU	INF

The date of seniority in respect of above mentioned officer will be as follows :-

- (i) The Date for increments of pay - 08 Mar 2003
- (ii) The date for promotion - 08 Nov 2003

The inter-se-seniority, vis-à-vis those granted Permanent Commission in the 10th years of service, of SSC-75(Non Tech) Course, will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The under mentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 08 Mar 2013, on relinquishing their Short Service Commission wef 08 Mar 2013 :-

Ser No	SS No	IC No allotted	Name	Arms/Services
(a)	SS-40103F	IC-65874F	TONSING SONGLIANTHUAM	INF

The date of seniority in respect of above mentioned officer will be as follows :-

- (i) The Date for increments of pay - 08 Mar 2003
- (ii) The date for promotion - 08 Nov 2003

The inter-se-seniority, vis-à-vis those granted Permanent Commission in the 10th years of service, of SSC-75(Non Tech) Course, will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The under mentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 06 Sep 2013, on relinquishing their Short Service Commission wef 06 Sep 2013 :-

Ser No	SS No	IC No Allotted	Name	Arms/Services
(a)	SS-40340L	IC-65953W	SANDEEP KUMAR	AOC
(b)	SS-40442F	IC-66005Y	NAVNEET GARHWAL	ENGRS
(c)	SS-40346M	IC-65957M	LAISHRAM RAJU SINGH	INF

The dates to be considered in respect of above mentioned officers in regular commission will be as follows :-

- (a) Date for increments of pay - 06 Sep 2003
- (b) Date of seniority for promotion - 06 May 2004

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 10 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The under mentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 20 Mar 2014, on relinquishing their Short Service Commission wef 20 Mar 2014 :-

Ser No	SS No	IC No Allotted	Name	Arms/Services
(a)	SS-40532H	IC-66047L	BIRENDER PATHANIA	INF
(b)	SS-40533L	IC-66048N	SUNNY	ENGRS
(c)	SS-40549W	IC-66058X	RAUT RUSHIKESH DEVIDAS	ARTY
(d)	SS-40552W	IC-66060P	BATTIANDA NANJAPPA PRAKASH	EME

(e)	SS-40555K	IC-66062A	KARTHIK R	INF
(f)	SS-40561X	IC-66068F	BHARAT VERMA	ENGRS
(g)	SS-40566W	IC-66071F	D KOMUO	INF
(h)	SS-40578L	IC-66077H	CHARANDEEP SINGH MAINI	INF
(j)	SS-40579N	IC-66078L	DEEPAK KUMAR TIWARI	INF
(k)	SS-40584Y	IC-66081L	KAMAL GAUTAM, SM	AAD
(l)	SS-40587M	IC-66083W	HIMANSHU NEGI	INF
(m)	SS-40591P	IC-66086K	PIYUSH CHAUHAN	INF
(n)	SS-40598Y	IC-66089X	MANISH JATRANA	INF
(o)	SS-40601N	IC-66091P	MAYANK AGRAWAL	AC
(p)	SS-40616W	IC-66097W	ASHIQ HUSSAIN	ARTY
(q)	SS-40617Y	IC-66098Y	ABESON JACOB	EME
(r)	SS-40618F	IC-66099F	SANDEEP JOSHI	INF
(s)	SS-40620Y	IC-66100L	KAPIL KASHYAP	INF
(t)	SS-40622K	IC-66101N	SHOUKAT ALI SYED	EME
(u)	SS-40635F	IC-66109A	SHAMINDER SINGH MANN	AC
(v)	SS-40639X	IC-66112A	LALIT SEHGAL	INF
(w)	SS-40641P	IC-66113H	ABHISHEK KUMAR	AOC
(x)	SS-40644H	IC-66114L	C JIDDIN	INT
(y)	SS-40651Y	IC-66116W	KARANJIT SINGH BRAR	AC
(z)	SS-40652F	IC-66117Y	SATYENDER SINGH	INF
(aa)	SS-40674A	IC-66125X	GAURAV JOSHI	INF
(ab)	SS-40681W	IC-66128L	GAURAV TOMAR	ARTY
(ac)	SS-40693L	IC-66130H	SIDDHARTH SINGH	INF

The dates to be considered in respect of above mentioned officers in regular commission will be as follows :-

- (a) Date for increments of pay - 20 Mar 2004
- (b) Date of seniority for promotion - 20 Oct 2004

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 10 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The under mentioned Short Service Commissioned Officer have been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 20 Mar 2014, on relinquishing their Short Service Commission wef 20 Mar 2014 :-

Ser No	SS No	IC No Allotted	Name	Arms/Services
(a)	SS-40540F	IC-66052W	PRABHAT RAI	AOC

The dates to be considered in respect of above mentioned officer in regular commission will be as follows :-

- (a) Date for increments of pay - 20 Mar 2004
- (b) Date of seniority for promotion - 20 Oct 2004

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 10 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The under mentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Maj wef 20 Mar 2014, on relinquishing their Short Service Commission wef 20 Mar 2014 :-

Ser No	SS No	IC No Allotted	Name	Arms/Services
(a)	SS-40654M	IC-66118F	S VISWANATHAN	INF

The dates to be considered in respect of above mentioned officers in regular commission will be as follows :-

(a) Date for increments of pay - 20 Mar 2004

(b) Date of seniority for promotion - 20 Oct 2004

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 10 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The under mentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 21 Nov 2013, on relinquishing their Short Service Commission wef 21 Nov 2013 :-

Ser No	SS No	IC No allotted	Name	Arms/Services
(a)	SS-41805M	IC-72959A	AMRIT PAL SINGH	INF
(b)	SS-41836M	IC-72960P	RAJINDER RATHORE	ARTY
(c)	SS-41846W	IC-72961X	BHASKAR JOSHI	AOC
(d)	SS-41856A	IC-72962A	CH JACOB	INF
(e)	SS-41873A	IC-72963H	GURAMAR SINGH	AAD
(f)	SS-41879F	IC-72964L	KISHOR SINGH	ARTY
(g)	SS-41904P	IC-72965N	SHRINIDHI C J	AAD
(h)	SS-41912N	IC-72966W	SUNIL KUMAR	INF
(j)	SS-41916K	IC-72967Y	ANSHUMAN SHARMA	INF
(k)	SS-41927W	IC-72968F	GINSONLAL TONSING	INF
(l)	SS-41930W	IC-72969K	MAHENDER SINGH	ARTY
(m)	SS-41938H	IC-72970Y	ARUN KUMAR VASHISTH	AC
(n)	SS-41954A	IC-72972K	NAIR RAJEEV SASHIDHARAN	INF
(o)	SS-41968A	IC-72973M	YOGESH LAD	INF
(p)	SS-41974N	IC-72974P	LALIT MOHAN SHARMA	INF
(q)	SS-41976Y	IC-72975X	SUMIT JOSHI	ASC
(r)	SS-41996M	IC-72976A	UDAIVIR SINGH SANGWAN	AOC

The date of seniority in respect of above mentioned officers will be as follows :-

(a) The Date for increments of pay - 18 Mar 2006

(b) Date of seniority for promotion - 18 Oct 2007

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 8 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The under mentioned Short Service Commissioned Officer has been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 22 Mar 2013, on relinquishing his Short Service Commission wef 22 Mar 2013:-

Ser No	SS No	IC No allotted	Name	Arms/Services
(a)	SS-42965Y	IC-73578L	VIKRAM MEHRA	ARTY

The dates to be considered in respect of above mentioned officer in regular commission will be as follows :-

- (a) Date for increments of pay - 22 Mar 2008
 (b) Date of seniority for promotion - 22 Oct 2008

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officer granted Permanent Commission after 05 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The under mentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 20 Sep 2013, on relinquishing their Short Service Commission wef 20 Sep 2013 :-

Ser No	SS No	IC No Allotted	Name	Arms/Services
(a)	SS-43188N	IC-73641P	RAKESH SHAH	INF
(b)	SS-43197P	IC-73649F	KAVINDER GURUNG	INF
(c)	SS-43258F	IC-73701Y	ABHISHEK BHUTANI	ARTY
(d)	SS-43251X	IC-73695W	ANKUSH SINGH	ARTY
(e)	SS-43212Y	IC-73661H	VISHAL GULERIA	INF

The dates to be considered in respect of above mentioned officers in regular commission will be as follows :-

- (a) Date for increments of pay- 20 Sep 2008
 (b) Date of seniority for promotion - 20 Apr 2009

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The under mentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 20 Sep 2013, on relinquishing their Short Service Commission wef 20 Sep 2013 :-

Ser No	SS No	IC No Allotted	Name	Arms/Services
(a)	SS-43187L	IC-73640M	TAKDIR SINGH	INF
(b)	SS-43279X	IC-73716F	ATUL KUMAR	MECH
(c)	SS-43315X	IC-73747F	RAHUL KUMAR	ENGRS

The dates to be considered in respect of above mentioned officers in regular commission will be as follows :-

- (a) Date for increments of pay- 20 Sep 2008
 (b) Date of seniority for promotion - 20 Apr 2009

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

The under mentioned Short Service Commissioned Officers have been granted Permanent Commission in the rank of Lt wef 20 Sep 2013, on relinquishing their Short Service Commission wef 20 Sep 2013 :-

Ser No	SS No	IC No Allotted	Name	Arms/Services
(a)	SS-43184X	IC-73635F	SATYA SHARAN ATMARAM	EME

The dates to be considered in respect of above mentioned officers in regular commission will be as follows :-

- (a) Date for increments of pay- 20 Oct 2006
 (b) Date of seniority for promotion - 20 Oct 2006

The inter-se-seniority of the above mentioned Short Service Commissioned Officers granted Permanent Commission after 5 years of service will remain same as allocated in the Gazette Notification for grant of Short Service Commission.

SALASH UNIYAL
 Col
 Col MS 7

AIR BRANCH

No. 281, Dated 25th November 2014—The president is pleased to grant Permanent Commission to the undermentioned SSC officers, on completion of their tenure of SSC wef from the date shown against their names under the provision of Govt of India, Min of Def letter No. 160CC/D(Air-III)/2011, Air HQ/21901/SSC/PC/PO-3(E) dated 05 Aug 11.

ACCTS BRANCH

Sqn Ldr Daizy Mehta (26619) wef 16 Jun 06

Sqn Ldr Namita Anand Sharma (26621) wef 16 Jun 06

Sqn Ldr Preeti Bahuguna (26624) wef 16 Jun 06

ADM BRANCH

Sqn Ldr Pratibha Sharma (26613) wef 16 Jun 06

Sqn Ldr Parul Misra (26614) wef 16 Jun 06

Sqn Ldr Shalini Chaudhary (26617) wef 16 Jun 06

Sqn Ldr Sonia Maithani (26618) wef 16 Jun 06

Sqn Ldr Manmeet Singh (26633) wef 22 Jun 07

Sqn Ldr AK Prasad (26634) wef 22 Jun 07

Sqn Ldr Sudhanshu Kumar (26635) wef 22 Jun 07

Sqn Ldr Sumesh S Nair (26637) wef 22 Jun 07

AE(L) BRANCH

Sqn Ldr Geetanjali Sagar (26667) wef 02 Jul 07

Sqn Ldr Rashmi Rawat (26672) wef 02 Jul 07

Sqn Ldr Mangalassary Preetha (26674) wef 02 Jul 07

Sqn Ldr Bhupendrakumar Santani Shreni (26675) wef 02 Jul 07

Sqn Ldr Puneet Sharma (27164) wef 08 Jul 12

Sqn Ldr Tuhina Singh (27167) wef 08 Jul 12

Sqn Ldr Pranav Sharma (27170) wef 08 Jul 12

Sqn Ldr Manpreet Bedi (27172) wef 08 Jul 12

Sqn Ldr R Subathra (27176) wef 08 Jul 12

Sqn Ldr Yogita Chauhan (27177) wef 08 Jul 12

Sqn Ldr Shilpa Suri (27178) wef 08 Jul 12

Sqn Ldr Anjali Singh (27179) wef 08 Jul 12

Sqn Ldr Manali Shukla (27181) wef 08 Jul 12

Sqn Ldr K Mahesh Priya (27182) wef 08 Jul 12

Sqn Ldr V Sarada (27183) wef 08 Jul 12

Sqn Ldr Sheetal Chauhan (27184) wef 08 Jul 12

Sqn Ldr Renuka Nair (27185) wef 12 Jul 12

Sqn Ldr Surbhi Arora (27187) wef 13 Jul 12

Sqn Ldr Deepti Malik (27189) wef 15 Jul 12

AE(M) BRANCH

Sqn Ldr Thomas Wilfred D'mello (27158) wef 08 Jul 12

Sqn Ldr Grahith Chris D'souza (27159) wef 08 Jul 12

Sqn Ldr R Sadish (27160) wef 08 Jul 12

Sqn Ldr Arul Andrews J (27161) wef 08 Jul 12

Sqn Ldr P Anil Kumar (27162) wef 08 Jul 12

Sqn Ldr Muthuswamy Sujatha (27166) wef 08 Jul 12

Sqn Ldr Abhishek Ojha (27190) wef 24 Jul 12

EDN BRANCH

Sqn Ldr Poonam Negi (26626) wef 16 Jun 06

MET BRANCH

Sqn Ldr Shreya Pandit (26211) wef 16 Jun 06

Sqn Ldr Vinila Verma (26212) wef 16 Jun 06

SK KHANUJA
Wg Cdr
JDPO-3(E)

ARMY BRANCH

No. 282, Dated 26th November 2014—The President is pleased to make the following promotion:-

REGULAR ARMY PERMANENT COMMISSION LT COLS TO BE SUBSTANTIVE COL (BY TIME SCALE)

IC No	Rank	Name	Arm	Subs Dt
IC-43784A	Lt Col	Digvijay Singh	GUARDS	14 Jun 2012
IC-44849P	Lt Col	SK Singh	INF	13 Dec 2013
IC-45814L	Lt Col	A Bhatnagar	AAD	05 Nov 2013
IC-45863N	Lt Col	Vikas Rana	ENGRS	05 Nov 2013
IC-45877N	Lt Col	Kamal Singh	INF	05 Nov 2013
IC-45885M	Lt Col	S Nagi	ASC	05 Nov 2013
IC-45899M	Lt Col	FS Bhadoria	AOC	05 Nov 2013
IC-47005K	Lt Col	CV Singh	AC	19 Dec 2013
IC-47006M	Lt Col	R Nathawat	MECH INF	19 Dec 2013
IC-47022K	Lt Col	AK Abrol	AOC	19 Dec 2013
IC-47084K	Lt Col	PS Sangwan	ARTY	19 Dec 2013
IC-47105P	Lt Col	Yash Saxena	INF	19 Dec 2013
IC-47131W	Lt Col	Deepak Kundra	ARTY	19 Dec 2013
IC-47135M	Lt Col	KS Rawat	INF	19 Dec 2013
IC-47136P	Lt Col	SK Ghosh	AOC	19 Dec 2013
IC-47141A	Lt Col	RK Attri	AOC	19 Dec 2013
IC-47147F	Lt Col	S Bhatia	EME	19 Dec 2013
IC-47155A	Lt Col	UC Bhatt	AOC	19 Dec 2013
IC-47157L	Lt Col	GSR Rao	AOC	19 Dec 2013

IC-47160L	Lt Col	PK Sharma	AAD	19 Dec 2013
IC-47164F	Lt Col	Ajay Kadian	GUARDS	19 Dec 2013
IC-47179K	Lt Col	VP Singh	AOC	19 Dec 2013
IC-47180Y	Lt Col	DS Raghuwanshi	INT	19 Dec 2013
IC-47185X	Lt Col	Mohan Singh	INF	19 Dec 2013
IC-47188L	Lt Col	SP Singh	INF	19 Dec 2013
IC-47201K	Lt Col	H Barthwal	AC	19 Dec 2013
IC-47204X	Lt Col	VM Naik	ASC	19 Dec 2013
IC-47214F	Lt Col	R Srinivas	ARTY	19 Dec 2013
IC-47232K	Lt Col	Devendra Pal	EME	19 Dec 2013
IC-47236A	Lt Col	Harpreet Singh	AAD	19 Dec 2013
IC-47243W	Lt Col	Baby CM	AC	19 Dec 2013
IC-47254H	Lt Col	KS Bidhan	ARTY	19 Dec 2013
IC-47257W	Lt Col	KJS Mayal	ARTY	19 Dec 2013
IC-47269L	Lt Col	GS Bhatti	INF	19 Dec 2013
IC-47270A	Lt Col	SN Sharma	ARTY	19 Dec 2013
IC-47273N	Lt Col	AK Singh	INF	19 Dec 2013
IC-47277K	Lt Col	SS Guleria	INF	19 Dec 2013
IC-47280K	Lt Col	HS Chopra	INF	19 Dec 2013
IC-47289Y	Lt Col	GS Verma	ASC	19 Dec 2013
IC-47294K	Lt Col	Rajeev Singh	INF	19 Dec 2013
IC-47300M	Lt Col	Sushobit Kumra	EME	19 Dec 2013
IC-47304H	Lt Col	Ram Dhan Singh	ASC	19 Dec 2013
IC-47306N	Lt Col	SK Panda	AC	19 Dec 2013
IC-47316X	Lt Col	DR Sinha	ENGRS	19 Dec 2013
IC-47317A	Lt Col	RK Pathak	SIGS	19 Dec 2013
IC-47321H	Lt Col	Pritpal Singh	AOC	19 Dec 2013
IC-47326F	Lt Col	Deepak Singh	ARTY	19 Dec 2013
IC-47328M	Lt Col	RK Jasaiwal	INF	19 Dec 2013
IC-47330K	Lt Col	U Prakash	SIGS	19 Dec 2013
IC-47332P	Lt Col	DK Yadav	ENGRS	19 Dec 2013
IC-47344K	Lt Col	AS Oberoi	ARTY	19 Dec 2013
IC-47345M	Lt Col	BK Dhankhar	INF	19 Dec 2013
IC-47349H	Lt Col	MS Rawat	MECH INF	19 Dec 2013
IC-47369W	Lt Col	Ravi Prakash	AOC	19 Dec 2013
IC-47370L	Lt Col	KS Talwar	GUARDS	19 Dec 2013
IC-47378X	Lt Col	S Bhushan	INT	19 Dec 2013

IC-47383H	Lt Col	Jagnar Singh	INT	19 Dec 2013
IC-47400X	Lt Col	Kuldeep Yadav	EME	19 Dec 2013
IC-47412M	Lt Col	PS Gautam	ARTY	19 Dec 2013
IC-47414X	Lt Col	KP Malik	ENGRS	19 Dec 2013
IC-47423Y	Lt Col	NJ Shevade	INF	19 Dec 2013
IC-47430P	Lt Col	Ashish Moulik	AC	19 Dec 2013
IC-47436W	Lt Col	G Majumdar	AC	19 Dec 2013
IC-47437Y	Lt Col	RK Choudhary	ASC	19 Dec 2013
IC-47444P	Lt Col	Dharam Pal	INF	19 Dec 2013
IC-47446A	Lt Col	S Ghildiyal	AC	19 Dec 2013
IC-47448L	Lt Col	VK Sharma	INF	19 Dec 2013
IC-47453W	Lt Col	SS Tomar	ARTY	19 Dec 2013
IC-47454Y	Lt Col	Harendra Singh	INF	19 Dec 2013
IC-47462X	Lt Col	AS Gill	INF	19 Dec 2013
IC-47463A	Lt Col	RS Babbal	ARTY	19 Dec 2013
IC-47467W	Lt Col	S Chauhan	ARTY	19 Dec 2013
IC-47474M	Lt Col	KS Rathee	INF	19 Dec 2013
IC-48907L	Lt Col	SK Singh	EME	14 Jun 2013
IC-48946K	Lt Col	AK Das	EME	14 Jun 2013
IC-49347W	Lt Col	RP Dahiya	ENGRS	20 Dec 2013
IC-49378W	Lt Col	Deepak Kumar	EME	20 Dec 2013
IC-49394N	Lt Col	AK Joon	ENGRS	20 Dec 2013
IC-49410A	Lt Col	Sanjeev Gupta	SIGS	20 Dec 2013
IC-49412L	Lt Col	SG Roy	ENGRS	20 Dec 2013
IC-45829N	Lt Col	Rajiv Nagpal	INF	05 Nov 2013
IC-43896A	Lt Col	SPS SENGHER	SIGS	21 Sep 2012
IC-44664M	Lt Col	YS RANA	INF	13 Jun 2013
IC-44738X	Lt Col	J JOSY	MECH INF	13 Jun 2013
IC-44845Y	Lt Col	RP SG	INT	13 Jun 2013
IC-44988Y	Lt Col	UK SHARMA	AEC	13 Jun 2013
IC-47130N	Lt Col	D BHANDARI	AOC	19 Dec 2013
IC-47158N	Lt Col	JAYA KUMAR S	ARTY	19 Dec 2013
IC-47159W	Lt Col	JOGINDER KUMAR	INF	19 Dec 2013
IC-47176W	Lt Col	MRR NAIR	ENGRS	19 Dec 2013
IC-47202M	Lt Col	RK BARMAN	ARTY	19 Dec 2013
IC-47206H	Lt Col	NJS MANN	AOC	19 Dec 2013
IC-47218X	Lt Col	AS BERI	GUARDS	19 Dec 2013

IC-47233M	Lt Col	SS SINSINWAR	INF	19 Dec 2013
IC-47281M	Lt Col	JASWANT SG	SIGS	19 Dec 2013
IC-47287N	Lt Col	V NEHRA	INT	19 Dec 2013
IC-47296P	Lt Col	DK SHARMA	MECH INF	19 Dec 2013
IC-47327K	Lt Col	KT SHERPA	ARTY	19 Dec 2013
IC-47384L	Lt Col	A MALHOTRA	ASC	19 Dec 2013
IC-47403L	Lt Col	R BHUTANI	ARTY	19 Dec 2013
IC-47408K	Lt Col	VIJAY DHAWAN	AOC	19 Dec 2013
IC-47420L	Lt Col	SS RATHORE	INF	19 Dec 2013
IC-47421N	Lt Col	K PRASAD	INT	19 Dec 2013
IC-47429 A	Lt Col	SS KULKARNI	AOC	19 Dec 2013
IC-47457M	Lt Col	VISHAL RAI	AOC	19 Dec 2013
IC-47471Y	Lt Col	VIVEK JHANJI	ASC	19 Dec 2013
IC-49392H	Lt Col	KD SG	SIGS	20 Dec 2013
IC-40241H	Lt Col	Anil Kumar	ARTY	19 Dec 2009
IC-41351K	Lt Col	Sanjay Kumar	ARTY	18 Jun 2009
IC-45848Y	Lt Col	GP Govind	EME	05 Nov 2013
IC-47040M	Lt Col	Shamsher Yadav	MECH INF	19 Dec 2013
IC-47229K	Lt Col	Dalwinder Singh	INF	19 Dec 2013
IC-47239N	Lt Col	Sudhir Varma	ARTY	19 Dec 2013
IC-47307W	Lt Col	S Ravichander	AC	19 Dec 2013
IC-47334A	Lt Col	Harish Katoch	AC	19 Dec 2013
IC-47379A	Lt Col	UK Pant	EME	19 Dec 2013
IC-47394P	Lt Col	Ranjit Singh	AC	19 Dec 2013
IC-47475P	Lt Col	SV Balaji	ARTY	19 Dec 2013
IC-48920P	Lt Col	Umesh Singh	SIGS	14 Jun 2013
IC-44594A	Lt Col	SK Obheroi	INF	13 Jun 2013
IC-44719M	Lt Col	Kamesh Kumar	SIGS	13 Jun 2013
IC-44852P	Lt Col	MN Gopal	INF	13 Jun 2013
IC-44936H	Lt Col	CR Reddy	AEC	13 Jun 2013
IC-45205F	Lt Col	Pranav Kumar	INF	25 Apr 2010
IC-45652L	Lt Col	SK Daw	ENGR	06 Nov 2012
IC-45802W	Lt Col	RS Kandwal	INF	05 Nov 2013
IC-45841P	Lt Col	Naresh Patrick	EME	05 Nov 2013
IC-45870K	Lt Col	Shamik Dutta	INF	05 Nov 2013
IC-47073X	Lt Col	Sanjeev Tyagi	ASC	19 Dec 2013
IC-47181F	Lt Col	SP Gupta	INF	19 Dec 2013

IC-47203P	Lt Col	PMB Lal	INF	19 Dec 2013
IC-47227Y	Lt Col	Pramod Kaushik	INF	19 Dec 2013
IC-47268H	Lt Col	BR Tiwari	ASC	19 Dec 2013
IC-47275Y	Lt Col	NS Sangha	INF	19 Dec 2013
IC-47343F	Lt Col	VBS Bora	INF	19 Dec 2013
IC-47359M	Lt Col	Arvind Kalia	EME	19 Dec 2013
IC-47426M	Lt Col	AK Pathania	INF	19 Dec 2013
IC-49383F	Lt Col	Vijay Choudhary	EME	20 Dec 2013
IC-49406X	Lt Col	SK Panda	EME	20 Dec 2013
IC-34618L	Lt Col	S Ramanujam	INF	16 Dec 2004
IC-44321X	Lt Col	PVS Narayanan	ENGRS	20 Dec 2012
IC-45693P	Lt Col	Krishnaswamy	INF	21 Apr 2013
IC-45819K	Lt Col	K Srivastava	ARTY	05 Nov 2013
IC-47066F	Lt Col	Sanjay Sharma	SIGS	19 Dec 2013
IC-47124A	Lt Col	JS Prasad	EME	19 Dec 2013
IC-47245F	Lt Col	A Gautam	AOC	19 Dec 2013
IC-47398L	Lt Col	SS Rathore	AC	19 Dec 2013
IC-47401A	Lt Col	KD Singh	EME	19 Dec 2013
IC-49413N	Lt Col	Sanjay Mohan	ENGRS	20 Dec 2013
IC-49414W	Lt Col	S Garg	EME	20 Dec 2013
IC-44442Y	Lt Col	Sanjay Mishra	EME	20 Dec 2010
IC-44718K	Lt Col	V Reddy	AOC	13 Jun 2013
IC-44824H	Lt Col	A Sunderlal	ASC	13 Jun 2013
IC-45851Y	Lt Col	SP Mukherjee	ARTY	05 Nov 2013
IC-47063N	Lt Col	S Sharma	ARTY	19 Dec 2013
IC-47077N	Lt Col	Varinder Singh	INF	19 Dec 2013
IC-47292Y	Lt Col	R Sethi	ARTY	19 Dec 2013
IC-47434L	Lt Col	AN Mathur	ARTY	19 Dec 2013
IC-47435N	Lt Col	R Jagtap	SIGS	19 Dec 2013
IC-49408H	Lt Col	TM Shiva	ENGRS	20 Dec 2013
TA-42234M	Lt Col	JS Anand	TA	22 Dec 2013
IC-43754H	Lt Col	RS Yadav	INF	14 Jun 2012
IC-44349X	Lt Col	Vikramjit Gupta	ARTY	20 Dec 2012
IC-44788H	Lt Col	Lakhwinder Singh	INF	13 Jun 2013
IC-47030H	Lt Col	VM Date	INF	19 Dec 2013
IC-47068M	Lt Col	Yogendra Kumar	AC	19 Dec 2013
IC-47211N	Lt Col	TK Thapar	EME	19 Dec 2013

IC-47234P	Lt Col	MS Bajwa	ARTY	19 Dec 2013
IC-47265P	Lt Col	GM Chaudhari	ENGRS	19 Dec 2013
IC-49401Y	Lt Col	P Kukreti	SIGS	20 Dec 2013
IC-45584H	Lt Col	SJS Randhawa	GUARDS	22 Apr 2012
IC-45847W	Lt Col	OP Ojha	ARTY	05 Nov 2013
IC-47465L	Lt Col	Sanjeev Singh	INF	19 Dec 2013
IC-48454L	Lt Col	Deepak Kumar	ENGRS	21 Dec 2012
IC-48871X	Lt Col	N Elango Rana P	EME	14 Jun 2013
IC-43663Y	Lt Col	Nipun Dwivedi	MECH INF	14 Jun 2012
IC-44401P	Lt Col	JS Marwa	ARTY	20 Dec 2012
IC-44785P	Lt Col	T Anand	SIGS	13 Jun 2013
IC-44786X	Lt Col	RK Gosain	AOC	13 Jun 2013
IC-45690F	Lt Col	Sumit Katyal	INF	21 Apr 2013
IC-45725M	Lt Col	P Bohra	AOC	21 Apr 2013
IC-45727X	Lt Col	John Louis Raj	INF	21 Apr 2013
IC-45852F	Lt Col	ARS Kandari	ASC	05 Nov 2013
IC-47282P	Lt Col	S Nagrath	AC	19 Dec 2013
IC-43761Y	Lt Col	SS Sidhu	AC	14 Jun 2012
IC-44152F	Lt Col	RS Walia	AAD	20 Dec 2012
IC-44726H	Lt Col	SS Jamwal	INF	13 Jun 2013
IC-45466P	Lt Col	V Sawhney	ARTY	07 Nov 2011
IC-45716L	Lt Col	AS Khatri	INF	21 Apr 2013
IC-45744X	Lt Col	VK Varma	SIGS	21 Apr 2013
IC-47052F	Lt Col	DS Yadav	INF	19 Dec 2013
IC-47216M	Lt Col	Humayun Mirza	INF	19 Dec 2013
IC-47251P	Lt Col	SY Jadhav	INF	19 Dec 2013
IC-47337N	Lt Col	SKG Dadhania	AAD	19 Dec 2013
IC-47392K	Lt Col	A Mehrotra	INF	19 Dec 2013
IC-47527A	Lt Col	Mantha Nagaraj	ENGRS	19 Dec 2011
IC-49371M	Lt Col	RN Maurya	SIGS	20 Dec 2013
TA-42259X	Lt Col	JS Brar	INF (TA)	17 Mar 2014
IC-42576Y	Lt Col	Sharanjit Singh	INF	15 Dec 2010
IC-43865A	Lt Col	S Pandey	INF	14 Jun 2012
IC-44640K	Lt Col	VK Sharma	ASC	13 Jun 2013
IC-45647A	Lt Col	Alok Parmar	AC	06 Nov 2012
IC-45689M	Lt Col	MD Monty	AC	21 Apr 2013
IC-45920K	Lt Col	S Kahol	ARTY	22 Apr 2014
IC-45923X	Lt Col	A Chandel, SM	INF	22 Apr 2014
IC-45957L	Lt Col	AK Vashishta	JAG	22 Apr 2014
IC-45997M	Lt Col	Gulshan Sharma	AAD	22 Apr 2014

IC-47348A	Lt Col	A Gupta	INT	19 Dec 2013
IC-47396A	Lt Col	DK Acharya	INF	19 Dec 2013
IC-47409M	Lt Col	VK Sharma	MECH INF	19 Dec 2013
IC-47468Y	Lt Col	R Arun	ARTY	19 Dec 2013
IC-47480A	Lt Col	N Sharma	MECH INF	19 Dec 2013
IC-48470H	Lt Col	Sudarshana Kumar	ENGRS	21 Dec 2012
IC47311Y	Lt Col	Bashir Ahmed	Inf	19 Dec 2013

NAVIN KUMAR
Dy Dir
MS 8A

ARMY BRANCH

No. 283, Dated 26th November 2014—The President is pleased to make the following promotion: -

TERRITORIAL ARMY
TERRITORIAL COMMISSION
TO BE CAPT

Lt Akash Deep	TA-42760	(Engineer TA)	01 Feb 2014
---------------	----------	---------------	-------------

B B JOSHI
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 284, Dated 27th November 2014—The President is pleased to make the following promotions:-

REGULAR ARMY
INFANTRY
LADAKH SCOUTS
TO BE SUBEDAR MAJOR (GD)

JC-588197K Sub Tsewang Pambar	01 Nov 2012*
*Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Nov 2012.	
JC-588200Y Sub Chamba Rigzin	01 Nov 2012*
*Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Nov 2012.	
JC-588211L Sub Chhering Namgial	01 Dec 2012*
*Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Dec 2012.	
JC-588219X Sub Dorje Morup	01 Jul 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Jul 2013.	
JC-588229F Sub Lobzang Giacho	01 Oct 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Oct 2013.	
JC-588230W Sub Sonam Jorfel	01 Oct 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Oct 2013.	
JC-588205X Sub Chhering Murup	01 Nov 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Nov 2013.	

JC-588319H Sub Nawang Namgial 01 May 2014*

*Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 May 2014.

JC-588261W Sub Padma Sangrup 01 Jul 2014*

*Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Jul 2014.

JC-588328K Sub Sonam Targes, YSM 01 Jul 2014*

*Granted seniority in the rank of Sub Maj with effect from 01 Jul 2014.

TO BE SUBEDAR MAJOR CLERK (SD)

JC-588225L Sub Clk Tsering Wangdus 01 Jan 2013*

*Granted seniority in the rank of Sub Maj Clk with effect from 01 Jan 2013.

JC-588368L Sub Clk Skarma Paljor 01 Feb 2014*

*Granted seniority in the rank of Sub Maj Clk with effect from 01 Feb 2014.

TO BE SUBEDAR (GD)

JC-588470N Nb Sub Tsewang Norboo 01 Aug 2012*

*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Aug 2012.

JC-588475M Nb Sub Tsewang Dorje 01 Aug 2012*

*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Aug 2012.

JC-588476P Nb Sub Tsering Wangial 01 Aug 2012*

*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Aug 2012.

JC-588506F Nb Sub Tsering Stanzin 01 Aug 2012*

*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Aug 2012.

JC-588478A Nb Sub Phonsong Rangdol 01 Sep 2012*

*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Sep 2012.

JC-588479H Nb Sub Nirmal Chand 01 Sep 2012*

*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Sep 2012.

JC-588483L Nb Sub Eshay Rigzin 01 Sep 2012*

*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Sep 2012.

JC-588502L Nb Sub Nawang Namgial 01 Sep 2012*

*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Aug 2012.

JC-588488K Nb Sub Tsering Samphel 01 Oct 2012*

*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2012.

JC-588489M Nb Sub Phunchok Wandus 01 Oct 2012*

*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2012.

JC-588491K Nb Sub Tsewang Norboo 01 Oct 2012*

*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2012.

JC-588492M Nb Sub Tsetan Namgial 01 Oct 2012*

*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2012.

JC-588493P Nb Sub Wangchan Tantak 01 Oct 2012*

*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2012.

JC-588505Y Nb Sub Tsewang Dorjey	01 Oct 2012*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2012.	
JC-588508M Nb Sub Rigzin Yangjore	01 Oct 2012*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2012.	
JC-588512P Nb Sub Tsetan Tundup	01 Oct 2012*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2012.	
JC-588519Y Nb Sub Tsewang Norboo	01 Oct 2012*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2012.	
JC-588500A Nb Sub Tashi Stanzin	15 Oct 2012*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 15 Oct 2012.	
JC-588485W Nb Sub Angchok Dorjay	01 Nov 2012*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2012.	
JC-588494X Nb Sub Tsewang Dorjai	01 Nov 2012*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2012.	
JC-588495A Nb Sub Rinchen Dorje	01 Nov 2012*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2012.	
JC-588501H Nb Sub Lhawang Tsering	01 Nov 2012*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2012.	
JC-588503N Nb Sub Smanla Angdus	01 Nov 2012*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2012.	
JC-588504W Nb Sub Tashi Morup	01 Nov 2012*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2012.	
JC-588533L Nb Sub Prem Singh	01 Nov 2012*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2012.	
JC-588538K Nb Sub Tsetan Namgial	01 Nov 2012*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2012.	
JC-588541K Nb Sub Mohd Ali	01 Nov 2012*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2012.	
JC-588546H Nb Sub Param Chand	01 Nov 2012*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2012.	
JC-588499W Nb Sub Tsewang Dorje	01 Dec 2012*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Dec 2012.	
JC-588513X Nb Sub Tsering Tashi	01 Dec 2012*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Dec 2012.	
JC-588556M Nb Sub Shiv Lal	01 Dec 2012*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Dec 2012.	
JC-588551N Nb Sub Prem Jit	01 Jan 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jan 2013.	

JC-588571F Nb Sub Ram Lal	01 Jan 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jan 2013.	
JC-588581L Nb Sub Kunzang Namgial	01 Jan 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jan 2013.	
JC-588432X Nb Sub Chhering Mutup	01 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Feb 2013.	
JC-588526P Nb Sub Morup Dorjai	01 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Feb 2013.	
JC-588565N Nb Sub Nawang Yountan	01 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Feb 2013.	
JC-588507K Nb Sub Tsering Angdus	01 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Feb 2013.	
JC-588509P Nb Sub Lobzang Tashi	01 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2013.	
JC-588516L Nb Sub Mohd Hanif	01 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2013.	
JC-588436N Nb Sub Rinchen Wangial	01 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2013.	
JC-588547L Nb Sub Kunzang Thinles	01 May 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 May 2013.	
JC-588566W Nb Sub Madho Ram	01 May 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 May 2013.	
JC-588514A Nb Sub Sonam Paljor	01 Jun 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2013.	
JC-588515H Nb Sub Sonam Stobgail	01 Jun 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2013.	
JC-588517N Nb Sub Gurmet Dorje	01 Jun 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2013.	
JC-588520N Nb Sub Tsewang Tashi	01 Jun 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2013.	
JC-588522Y Nb Sub Nirmal Chand	01 Jun 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2013.	
JC-588523F Nb Sub Bagh Chand	01 Jun 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2013.	
JC-588525M Nb Sub Tsering Phunchok	01 Jun 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jun 2013.	
JC-588524K Nb Sub Stanzin Zangbo	01 Jul 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jul 2013.	

JC-588537F Nb Sub Ghulam Hussain	01 Jul 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jul 2013.	
JC-588540F Nb Sub Tsering Morup	01 Jul 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jul 2013.	
JC-588555K Nb Sub Thinlas Tsewang	01 Jul 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jul 2013.	
JC-588572K Nb Sub Sonam Chespal	01 Jul 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jul 2013.	
JC-588527X Nb Sub Tsering Stobdan	01 Aug 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Aug 2013.	
JC-588534N Nb Sub Tashi Angdus	01 Aug 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Aug 2013.	
JC-588544X Nb Sub Mehdi Khan	01 Aug 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Aug 2013.	
JC-588521W Nb Sub Tsetan Galten	01 Oct 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2013.	
JC-588535N Nb Sub Lachham Singh	01 Oct 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2013.	
JC-588557P Nb Sub Tsering Namgial	01 Oct 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Oct 2013.	
JC-588529H Nb Sub Sonam Phunchok	01 Nov 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2013.	
JC-588539M Nb Sub Dinesh Kumar	01 Nov 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Nov 2013.	
JC-588553Y Nb Sub Tashi Dorjey	20 Nov 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 20 Nov 2013.	
JC-588582N Nb Sub Nawang Samtan	01 Dec 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Dec 2013.	
JC-588545A Nb Sub Tsetan Phonsog	01 Mar 2014*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2014.	
JC-588554F Nb Sub Namgial Dorjay	01 Mar 2014*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2014.	
JC-588590M Nb Sub Padma Rigzin	01 Mar 2014*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Mar 2014.	
JC-588567Y Nb Sub Tsering Wangdus	01 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2014.	
JC-588570Y Nb Sub Rinchan Zangbo	01 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Apr 2014.	

JC-588586K Nb Sub Tsering Tashi	15 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 15 Apr 2014.	
JC-588580H Nb Sub Sangay Punchok	01 May 2014*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 May 2014.	
JC-588548N Nb Sub Tsering Angchok	01 Jul 2014*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jul 2014.	
JC-588607P Nb Sub Tsewang Dorgay	01 Jul 2014*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Jul 2014.	
JC-588558X Nb Sub Nawang Yountan	01 Aug 2014*
*Granted seniority in the rank of Sub with effect from 01 Aug 2014.	
TO BE SUBEDAR CLERK (SD)	
JC-588452L Nb Sub (Clk) Tsetan Namgial	01 Dec 2012*
*Granted seniority in the rank of Sub Clk with effect from 01 Dec 2012.	
JC-588456F Nb Sub (Clk) Habib Ullah Wagy	01 Dec 2012*
*Granted seniority in the rank of Sub Clk with effect from 01 Dec 2012.	
JC-588480X Nb Sub (Clk) Rajinder Singh Raja	01 Jan 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub Clk with effect from 01 Jan 2013.	
JC-588487F Nb Sub (Clk) Shamsheer Singh Chahal	01 Jan 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub Clk with effect from 01 Jan 2013.	
JC-588496H Nb Sub (Clk) Phooman Singh	01 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub Clk with effect from 01 Feb 2013.	
JC-588528A Nb Sub (Clk) Devinder Singh Pathania	01 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub Clk with effect from 01 Mar 2013.	
JC-588530X Nb Sub (Clk) Tsewang Namgial	01 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub Clk with effect from 01 Mar 2013.	
JC-588550L Nb Sub (Clk) Minaketan Chanda	01 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub Clk with effect from 01 Apr 2013.	
JC-588559A Nb Sub (Clk) Shiv Kumar Singh	01 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub Clk with effect from 01 Apr 2013.	
JC-588560P Nb Sub (Clk) Balram Sharma	01 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub Clk with effect from 01 Apr 2013.	
JC-588561X Nb Sub (Clk) Sonam Gailchan	01 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub Clk with effect from 01 Apr 2013.	
JC-588562A Nb Sub (Clk) Radhe Shyam	01 May 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub Clk with effect from 01 May 2013.	
JC-588563H Nb Sub (Clk) Birendra Singh Negi	01 May 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub Clk with effect from 01 May 2013.	
JC-588564L Nb Sub (Clk) Kuldeep Singh	01 Jun 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub Clk with effect from 01 Jun 2013.	

JC-588584Y Nb Sub (Clk) Charanjeet Singh	01 Aug 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub Clk with effect from 01 Aug 2013.	
JC-588585F Nb Sub (Clk) Rajendra Singh Basnal	01 Oct 2013*
*Granted seniority in the rank of Sub Clk with effect from 01 Oct 2013.	
JC-588596N Nb Sub (Clk) Sushil Kumar	01 Feb 2014*
*Granted seniority in the rank of Sub Clk with effect from 01 Feb 2014.	
JC-588599F Nb Sub (Clk) Satish Kumar	01 Mar 2014*
*Granted seniority in the rank of Sub Clk with effect from 01 Mar 2014.	
JC-588613H Nb Sub (Clk) Rajesh Kumar	01 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Sub Clk with effect from 01 Apr 2014.	
JC-588621F Nb Sub (Clk) Janak Raj	01 Aug 2014*
*Granted seniority in the rank of Sub Clk with effect from 01 Aug 2014.	

TO BE NAIB SUBEDAR (GD)

Hav Dorjay Raftan (9923934N Now JC-588627H)	01 Aug 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2012.	
Hav Pawan Kumar (9924098F Now JC-588628L)	01 Aug 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2012.	
Hav Rigzin Mutup (9924251M Now JC-588629N)	01 Aug 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2012.	
Hav Rigzen Yangjor (9924277F Now JC-588630H)	01 Aug 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2012.	
Hav Tashi Angchok (9924193N Now JC-588631L)	01 Sep 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2012.	
Hav Tsetan Angchok (9924052Y Now JC-588632N)	01 Sep 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Sep 2012.	
Hav Sonam Targais (9926543N Now JC-588633W)	25 May 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 25 May 2012.	
Hav Sonam Chosdan (9923964L Now JC-588635F)	01 Oct 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2012.	
Hav Rigzin Norboo (9924057X Now JC-588636K)	01 Oct 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2012.	
Hav Padma Namgail (9923992X Now JC-588637M)	01 Oct 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2012.	
Hav Tsewang Namgail (9924086M Now JC-588638P)	01 Oct 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2012.	
Hav Narboo Gailson (9924338N Now JC-588639X)	01 Oct 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2012.	

Hav Tsering Morup (9924429X Now JC-588640M)	01 Oct 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2012.	
Hav Sonam Stobgias (9924482H Now JC-588642X)	01 Oct 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2012.	
Hav Chemet Rigzin (9924533L Now JC-588643A)	15 Oct 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 15 Oct 2012.	
Hav Gleke Nema (9923907K Now JC-588644H)	01 Nov 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2012.	
Hav Tundup Tashi (9923866L Now JC-588645L)	01 Nov 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2012.	
Hav Tashi Namgyal (9923946H Now JC-588646N)	01 Nov 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2012.	
Hav Nawang Tashi (9923994H Now JC-588647W)	01 Nov 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2012.	
Hav Namgial Dorje (9923927X Now JC-588648Y)	01 Nov 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2012.	
Hav Tundup Chhespal (9924032L Now JC-588649F)	01 Nov 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2012.	
Hav Tsetan Paljor (9924046L Now JC-588650W)	01 Nov 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2012.	
Hav Tsewang Tundup (9923806W Now JC-588651Y)	01 Nov 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2012.	
Hav Sonam Wangail (9924335A Now JC-588652F)	01 Nov 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2012.	
Hav Tsering Tondup (9923986K Now JC-588655P)	01 Dec 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2012.	
Hav Thenlass Namgail (9924133Y Now JC-588656X)	01 Dec 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2012.	
Hav Tsetan Phuntsog (9924387W Now JC-588658H)	01 Jan 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2013.	
Hav Tsewang Lundup (9924302P Now JC-588659L)	01 Jan 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2013.	
Hav Tsering Stobdan (9924581L Now JC-588660A)	01 Jan 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2013.	
Hav Tashi Lundup (9927450L Now JC-588663N)	01 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2013.	
Hav Konchok Sonam (9924451H Now JC-588664W)	01 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2013.	

Hav Tsewang Gailson (9924541K Now JC-588665Y)	01 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2013.	
Hav Punchok Angchuk (9924266P Now JC-588666F)	01 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Feb 2013.	
Hav Tsewang Norboo (9923898N Now JC-588669P)	01 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2013.	
Hav Chhewang Dorje (9924239L Now JC-588670K)	01 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2013.	
Hav Skarma Namgial (9923979N Now JC-588671M)	01 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2013.	
Hav Tashi Angchok (9924305H Now JC-588676L)	28 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 28 Apr 2013.	
Hav Tsewang Dorje (9923920N Now JC-588679Y)	01 May 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 May 2013.	
Hav Mohd Ibrahim (9924404L Now JC-588680N)	01 May 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 May 2013.	
Hav Tashi Zangboo (9924558X Now JC-588681W)	01 May 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 May 2013.	
Hav Nawang Norboo (9924014H Now JC-588682Y)	01 May 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 May 2013.	
Hav Stanzen Angchok (9924007M Now JC-588683F)	01 Jun 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2013.	
Hav Thugey Sonam (9924049Y Now JC-588684K)	01 Jun 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2013.	
Hav Tsetan Angchok (9924612A Now JC-588685M)	01 Jun 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2013.	
Hav Sonam Phuntsog (9924027A Now JC-588686P)	01 Jun 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2013.	
Hav Shakir Hussain (9924319H Now JC-588687X)	01 Jun 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2013.	
Hav Chhewang Nurboo (9924328K Now JC-588688A)	01 Jun 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2013.	
Hav Afzal Shah (9924231Y Now JC-588689H)	01 Jun 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2013.	
Hav Sonam Targais (9924704M Now JC-588690X)	01 Jun 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jun 2013.	
Hav Lobzang Stanzin (9924061A Now JC-588692H)	01 Jul 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2013.	

Hav Tsewang Paljor (9923915H Now JC-588693L)	01 Jul 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2013.	
Hav Tsewang Stanzin (9924067F Now JC-588694N)	01 Jul 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2013.	
Hav Angchok Dorji, VSM (9927425M Now JC-588695W)	01 Jul 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2013.	
Hav Tashi Namgyal (9924402A Now JC-588696Y)	01 Jul 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jul 2013.	
Hav Punchok Dorjay (9924150Y Now JC-588697F)	10 Jul 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 10 Jul 2013.	
Hav Tsewang Gailson (9924280F Now JC-588698K)	01 Aug 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2013.	
Hav Tsering Tondup (9924351X Now JC-588699M)	01 Aug 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2013.	
Hav Sangay Mutup (9924011P Now JC-588700W)	01 Aug 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2013.	
Hav Sonam Angchok (9924358F Now JC-588703K)	01 Oct 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2013.	
Hav Tsewang Phuntsog (9924254A Now JC-588704M)	01 Oct 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2013.	
Hav Thukjay Tondan (9924343Y Now JC-588705P)	01 Oct 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Oct 2013.	
Hav Tashi Wangyal (9924379X Now JC-588706X)	01 Nov 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2013.	
Hav Tsewang Dorjan (9924040K Now JC-588707A)	01 Nov 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Nov 2013.	
Hav Tsering Namgyal (9924200Y Now JC-588708H)	20 Nov 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 20 Nov 2013.	
Hav Phunstog Dorje (9924056P Now JC-588709L)	01 Dec 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2013.	
Hav Rajinder Singh Bodh (9924091X Now JC-588710A)	01 Dec 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Dec 2013.	
Hav Thinles Gonbo (9924241H Now JC-588711H)	01 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Jan 2014.	
Hav Rinchen Angchok (9924462P Now JC-588712L)	10 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 10 Jan 2014.	
Hav Tashi Norfel (9924022F Now JC-588715Y)	01 Mar 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2014.	

Hav Tsewang Namgial (9924440W Now JC-588716F)	01 Mar 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2014.	
Hav Tsering Dorjay (9924113L Now JC-588717K)	01 Mar 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Mar 2014.	
Hav Thubstan Chultim (9924051W Now JC-588721M)	01 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2014.	
Hav Sonam Dorjay (9924185P Now JC-588722P)	01 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Apr 2014.	
Hav Phunchok Dorjai (9924283P Now JC-588724A)	01 Aug 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub with effect from 01 Aug 2014.	

TO BE NAIB SUBEDAR CLERK (GD)

Hav/Clk Sanjaya Kumar Panigrahi (9924552W Now JC-588634Y)	01 Jul 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 01 Jul 2012.	
Hav/Clk Harihar Chaubey (9924472Y Now JC-588653K)	01 Dec 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 01 Dec 2012.	
Hav/Clk Dawa Tsering (9924628L Now JC-588654M)	01 Dec 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 01 Dec 2012.	
Hav/Clk Shamsher Singh (9924553Y Now JC-588657A)	01 Jan 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 01 Jan 2013.	
Hav/Clk Badri Nath Yadav (6390215F Now JC-588661H)	01 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 01 Feb 2013.	
Hav/Clk Rakesh Kumar (9924394M Now JC-588662L)	01 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 01 Feb 2013.	
Hav/Clk Sanjeev Kumar (9924555K Now JC-588667K)	01 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 01 Mar 2013.	
Hav/Clk Krishan Lal (9924629L Now JC-588668M)	01 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 01 Mar 2013.	
Hav/Clk Stanzen Giatso (9924630H Now JC-588672P)	01 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 01 Apr 2013.	
Hav/Clk Mohd Sharif (9924663N Now JC-588673X)	01 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 01 Apr 2013.	
Hav/Clk Balbir Singh (9924664W Now JC-588674A)	01 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 01 Apr 2013.	
Hav/Clk Rinchen Tashi (9924690X Now JC-588675H)	01 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 01 Apr 2013.	
Hav/Clk Bharat Bhushan Singh (9924745W Now JC-588677N)	01 May 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 01 May 2013.	

Hav/Clk Ravi Kumar (9924746Y Now JC-588678W)	01 May 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 01 May 2013.	
Hav/Clk Raj Kumar (9924783M Now JC-588691A)	01 Jun 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 01 Jun 2013.	
Hav/Clk Pradeep Kumar Singh (9924789N Now JC-588701Y)	01 Aug 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 01 Aug 2013.	
Hav/Clk Jay Kishor Mishra (9924744N Now JC-588702F)	01 Oct 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 01 Oct 2013.	
Hav/Clk Kamlesh Kumar Rana (9924692H Now JC-588713N)	26 Jan 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 26 Jan 2014.	
Hav/Clk Tundup Tashi (9924759W Now JC-588714W)	01 Feb 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 01 Feb 2014.	
Hav/Clk Tashi Dorje (9924763Y Now JC-588718M)	01 Mar 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 01 Mar 2014.	
Hav/Clk Mahinder Kumar (9924913K Now JC-588723X)	01 Apr 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub Clk with effect from 01 Apr 2014.	

TO BE NAIB SUBEDAR (RELIGIOUS TEACHER)

Nb Sub (RT) Genyen Phuntsok (588641P Now JC-588641P)	02 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (RT) with effect from 02 Mar 2013.	
Rfn Aftab Ahmad Khan (2700936F Now JC-588719P)	29 Mar 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (RT) with effect from 29 Mar 2014.	
Nb Sub (RT) Hafeez Ahmed (588720K Now JC-588720K)	29 Mar 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (RT) with effect from 29 Mar 2014.	
Nb Sub (RT) Md Shakilur Rahman Ansari (588725H Now JC-588725H)	28 Jun 2014*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (RT) with effect from 28 Jun 2014.	

THE JAT REGIMENT

To be Sub

Nb Sub	Ajit Singh	(JC-490299K)	1 st July 2012
Nb Sub	Jag Mohan Lal	(JC-490304K)	3 rd Sep 2012*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 July 2012 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Braham Raj Singh	(JC-490409N)	1 st July 2012
Nb Sub	Vikram Singh Tomar	(JC-490574Y)	1 st July 2012
Nb Sub	Jai Bhagwan	(JC-490605N)	2 nd July 2012*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 July 2012 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Narander Singh	(JC-490091F)	30 th Aug 2012*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2012 without effect on pay & allowances.			
Nb Sub	Prabhati Lal	(JC-490171Y)	31 st Aug 2012*
*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2012 without effect on pay & allowances.			

Nb Sub	Satyavir	(JC-490280L)	1 st Aug 2012
Nb Sub	Bijendra Singh	(JC-490294L)	1 st Aug 2012
Nb Sub	Rishi Pal	(JC-490300N)	1 st Aug 2012
Nb Sub	Vir Pal	(JC-490310X)	17 th Oct 2012*

*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Aug 2012 without effect on pay & allowances.

Nb Sub	Ram Lal	(JC-490311A)	1 st Aug 2012
Nb Sub	Gajendra Singh	(JC-490318K)	1 st Aug 2012
Nb Sub	Rai Singh	(JC-490323P)	1 st Aug 2012
Nb Sub	Ranveer Singh	(JC-490361L)	1 st Aug 2012
Nb Sub	Bhagwan Singh	(JC-490362N)	1 st Aug 2012
Nb Sub	Dana Ram	(JC-490191M)	8 th Aug 2012*

*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 05 Aug 2012 without effect on pay & allowances.

Nb Sub	Satendra Singh	(JC-490234W)	1 st Sep 2012
Nb Sub	Karni Ram	(JC-490239P)	1 st Sep 2012
Nb Sub	Mahendra Singh Suhag	(JC-490355X)	1 st Sep 2012
Nb Sub	Narendra Singh	(JC-490357H)	1 st Sep 2012
Nb Sub	Tara Chand	(JC-490334F)	1 st Sep 2012
Nb Sub	Moola Ram Choudhary	(JC-490350Y)	1 st Sep 2012
Nb Sub	Kartar Chand	(JC-490451M)	29 th Sep 2012*

*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 2012 without effect on pay & allowances.

Nb Sub	Devendra Kumar	(JC-490461W)	1 st Sep 2012
Nb Sub	Ashok Kumar	(JC-490546M)	11 th Sep 2012*

*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Sep 2012 without effect on pay & allowances.

Nb Sub	Mool Chand	(JC-490547P)	1 st Sep 2012
Nb Sub	Omvir Singh	(JC-490172F)	1 st Oct 2012
Nb Sub	Hoshiar Singh	(JC-490278N)	1 st Oct 2012
Nb Sub	Rajesh Kumar	(JC-490281N)	1 st Oct 2012
Nb Sub	Ranveer Singh	(JC-490329W)	6 th Nov 2012*

*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Oct 2012 without effect on pay & allowances.

Nb Sub	Tara Chand	(JC-490505H)	10 th Nov 2012*
--------	------------	--------------	----------------------------

*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Oct 2012 without effect on pay & allowances.

Nb Sub	Lalbeer	(JC-490518A)	1 st Oct 2012
Nb Sub	Raj Kumar Singh	(JC-490575F)	19 th Dec 2012*

*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 01 Oct 2012 without effect on pay & allowances.

Nb Sub	Raj Kumar	(JC-490576K)	1 st Oct 2012
Nb Sub	Rajendra Prasad	(JC-490343H)	23 rd Nov 2012*

*Gtd seniority in the rank of Subedar wef 06 Oct 2012 without effect on pay & allowances.

To be Nb Sub

Hav Om Prakash (No 3200273P now JC-491126Y) 16th May 2014*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 23 Oct 2011 without effect on pay & allowances.

Hav Balbir Singh (No 3185371P now JC-491127F) 12th May 2014*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2014 without effect on pay & allowances.

Hav Rajesh Kumar (No 3185366K now JC-491128K) 23rd June 2014*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Mar 2014 without effect on pay & allowances.

Hav Ajay Kumar (No 3187163Y now JC-491129M) 28th May 2014*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 Apr 2014 without effect on pay & allowances.

Hav Bijendra Singh (No 3185467X now JC-491130F) 23rd June 2014*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2014 without effect on pay & allowances.

Hav Hari Singh Gurjar (No 3184885A now JC-491131K) 14th June 2014*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 May 2014 without effect on pay & allowances.

Hav Shiv Nath Singh (No 3184989F now JC-491132M) 20th June 2014*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2014 without effect on pay & allowances.

Hav Gulvir Singh (No 3185391H now JC-491133P) 20th June 2014*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2014 without effect on pay & allowances.

Hav Nanda Ram (No 3184964P now JC-491134X) 05th July 2014*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2014 without effect on pay & allowances.

Hav Rajvir Singh (No 3185922P now JC-491135A) 01st June 2014

Hav Jaibir Singh (No 3185472H now JC-491136H) 01st June 2014

Hav Mukesh (No 3186022X now JC-491137L) 10th June 2014*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2014 without effect on pay & allowances.

Hav Mahendra Singh (No 3186028Y now JC-491138N) 25th June 2014*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2014 without effect on pay & allowances.

Hav Ch Rishipal Singh Nadar (No 3186120X now JC-491139W) 26th June 2014*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2014 without effect on pay & allowances.

Hav Subhash Chand (No 3188002H now JC-491140L) 23rd June 2014*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2014 without effect on pay & allowances.

Hav Rajendra Singh (No 3187091A now JC-491141N) 23rd June 2014*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2014 without effect on pay & allowances.

Hav Suresh Pal (No 3185836K now JC-491142W) 23rd June 2014*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2014 without effect on pay & allowances.

Hav Chandan Singh (No 3186866N now JC-491143Y) 01st June 2014

Hav Ram Niwas Sharma (No 3186925P now JC-491144F) 01st June 2014

Hav Charan Singh (No 3187207L now JC-491145K) 12th June 2014*

*Gtd seniority in the rank of Naib Subedar wef 01 June 2014 without effect on pay & allowances.

Hav	Satish Kumar	(No 3187613L now JC-491146M)	01 st July 2014
Hav	Satish Kumar	(No 3187650Y now JC-491147P)	01 st July 2014
Hav Clk	Balakrushna Pradhan	(No 4187295H now JC-491148X)	01 st July 2014

THE SIKH LI

To be Naib Subedar (GD)

Hav Parmjit Ram	(4470714X now JC-510252H)	-	01 Jan 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 May 2012.			
Hav Narinder Singh	(4470370K now JC-510253L)	-	11 Dec 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 14 May 2012.			
Hav Darshan Singh	(4469409Y now JC-510254N)	-	11 Dec 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jun 2012.			
Hav Sukhminder Singh	(4469459K now JC-510255W)	-	04 Dec 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 02 Jul 2012.			
Hav Mittar Pal	(4469853P now JC-510256Y)	-	11 Dec 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Sep 2012.			
Hav Kuldip Singh	(4471051K now JC-510257F)	-	17 Dec 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 19 Sep 2012.			
Hav Darshan Singh	(4469429M now JC-510258K)	-	01 Jan 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Oct 2012.			
Hav Balvir Singh	(4470815L now JC-510259M)	-	01 Jan 2013
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Oct 2012.			
Hav Sohan Singh	(4470550M now JC-510260F)	-	26 Nov 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Oct 2012.			
Hav Nirmal Singh	(4469385A now JC-510261K)	-	04 Dec 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Oct 2012.			
Hav Nirmal Singh	(4471191W now JC-510262M)	-	16 Jan 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 17 Oct 2012.			
Hav Narinder Singh	(4471485K now JC-510263P)	-	11 Dec 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2012.			
Hav Parmjit Singh	(4470229H now JC-510264X)	-	31 Dec 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2012.			
Hav Gulzar Singh	(4470391A now JC-510265A)	-	05 Jan 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2012.			
Hav Mail Singh	(4469370X now JC-510268N)	-	02 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 31 Mar 2012.			
Hav Lachhman Singh	(4470090W now JC-510269W)	-	09 Oct 2012*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 23 Aug 2012.			
Hav Avtar Singh	(4470253Y now JC-510270L)	-	04 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Sep 2012.			

Hav Ram Singh	(4470560W now JC-510271N)	-	26 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Oct 2012.			
Hav Palwinder Singh	(4471379L now JC-510272W)	-	05 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Nov 2012.			
Hav Jaspal Singh	(4472635F now JC-510273Y)	-	02 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Nov 2012.			
Hav Lakhbir Singh	(4470597X now JC-510274F)	-	15 Jan 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2012.			
Hav Lakhbir Singh	(4471227K now JC-510275K)	-	13 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2012.			
Hav Joginder Singh	(4471228M now JC-510276M)	-	01 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2012.			
Hav Harnek Singh	(4472178Y now JC-510277P)	-	13 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2012.			
Hav Major Singh	(4471997W now JC-510278X)	-	21 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2012.			
Hav Jagmohan Singh	(4472474K now JC-510279A)	-	22 Jan 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2012.			
Hav Resham Singh	(4470608Y now JC-510280P)	-	03 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 07 Dec 2012.			
Hav Paramjit Singh	(4470143K now JC-510281X)	-	22 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 27 Dec 2012.			
Hav Kashmir Singh	(4470823K now JC-510282A)	-	30 Jan 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 29 Dec 2012.			
Hav Jagjit Singh	(4471908M now JC-510283H)	-	19 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 30 Dec 2012.			
Hav Tarsem Singh	(4472678W now JC-510284L)	-	15 Jan 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2013.			
Hav Kulwant Singh	(4470713P now JC-510285N)	-	01 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2013.			
Hav Mewa Singh	(4470092F now JC-510286W)	-	23 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jan 2013.			
Hav Roshan Singh	(4470694P now JC-510287Y)	-	23 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 05 Jan 2013.			
Hav Bikar Singh	(4472911Y now JC-510288F)	-	17 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 15 Jan 2013.			
Hav Jagmail Singh	(4470742K now JC-510290Y)	-	01 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Feb 2013.			

Hav Chatin Singh	(4470743M now JC-510291F)	-	02 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Feb 2013.			
Hav Yadwinder Singh	(4472919L now JC-510292K)	-	16 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Feb 2013.			
Hav Lakhwinder Singh	(4472467N now JC-510293M)	-	11 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 12 Feb 2013.			
Hav Ramesh Singh	(4469661X now JC-510294P)	-	08 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 17 Feb 2013.			
Hav Gursewak Singh	(4470765L now JC-510297H)	-	09 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2013.			
Hav Sukhviral Singh	(4469958Y now JC-510298L)	-	09 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2013.			
Hav Jaspal Singh	(4471113Y now JC-510299N)	-	01 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2013.			
Hav Jarnail Singh	(4471477L now JC-510300X)	-	01 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2013.			
Hav Jaswant Singh	(4472145N now JC-510301A)	-	01 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2013.			
Hav Manjit Singh	(4470207K now JC-510302H)	-	01 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2013.			
Hav Balwinder Singh	(4471966W now JC-510303L)	-	09 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 05 Nov 2012.			
Hav Satpal Singh	(4270987W now JC-510304N)	-	06 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 11 Nov 2012.			
Hav Roshan Singh	(4472468W now JC-510305W)	-	03 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2012.			
Hav Jaswinder Singh	(4470435M now JC-510306Y)	-	21 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 16 Jan 2013.			
Hav Surinder Singh	(4471568P now JC-510307F)	-	27 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 23 Jan 2013.			
Hav Kulwinder Singh	(4472224H now JC-510308K)	-	02 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2013.			
Hav Surat Singh	(4471092N now JC-510309M)	-	16 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2013.			
Hav Iqbal Singh	(4474266N now JC-510310F)	-	18 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2013.			
Hav Paramjit Singh	(4470576F now JC-510311K)	-	21 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2013.			

Hav Satnam Singh	(4470137W now JC-510312M)	-	28 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2013.			
Hav Roop Singh	(4470390X now JC-510313P)	-	29 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2013.			
Hav Ranjit Singh	(4470689K now JC-510314X)	-	26 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2013.			
Hav Balbir Singh	(4473017H now JC-510315A)	-	02 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2013.			
Hav Hoshiar Singh	(4470697H now JC-510316H)	-	26 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2013.			
Hav Harmel Singh	(4470755F now JC-510317L)	-	26 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2013.			
Hav Avtar Singh, SM	(4471952W now JC-510318N)	-	23 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 24 Mar 2013.			
Hav Harblas	(4473340X now JC-510319W)	-	26 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 31 Mar 2013.			
Hav Gurmeet Singh	(4470235W now JC-510325X)	-	03 May 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2013.			
Hav Mewa Singh	(4470225M now JC-510326M)	-	03 May 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2013.			
Hav Darshan Singh	(4470236Y now JC-510327P)	-	03 May 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2013.			
Hav Sarbjeet Singh	(4470290M now JC-510328X)	-	13 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2013.			
Hav Parmjit Singh	(4472030A now JC-510329A)	-	13 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2013.			
Hav Charanjit Singh	(4472177W now JC-510330P)	-	01 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2013.			
Hav Dharam Singh	(4470487H now JC-510331X)	-	01 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2013.			
Hav Hardeep Singh	(4471292K now JC-510332A)	-	01 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2013.			
Hav Gurmukh Singh	(4468896X now JC-510333H)	-	01 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2013.			
Hav Desa Singh	(4471310F now JC-510334L)	-	01 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2013.			
Hav Pritpal Singh	(4472199P now JC-510335N)	-	01 May 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 May 2013.			

Hav Harjeet Singh	(4471818L now JC-510336W)	-	04 May 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 29 Dec 2012.			
Hav Narinder Singh	(4473882F now JC-510337Y)	-	17 May 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2013.			
Hav Gurmukh Singh	(4274867P now JC-510338F)	-	03 Jun 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2013.			
Hav Parvinder Singh	(4470868K now JC-510339K)	-	02 May 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 05 Mar 2013.			
Hav Shamsheer Singh	(4470305K now JC-510341F)	-	21 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 04 Apr 2013.			
Hav Pargat Singh	(4470654N now JC-510342K)	-	17 May 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 10 Apr 2013.			
Hav Baljit Singh	(4470788M now JC-510343M)	-	11 May 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 10 Apr 2013.			
Hav Gurnam Singh	(4471491X now JC-510344P)	-	11 May 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 10 Apr 2013.			
Hav Kulwant Singh	(4471949W now JC-510345X)	-	11 May 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 10 Apr 2013.			
Hav Gurtej Singh	(4470914N now JC-510346A)	-	09 May 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 24 Apr 2013.			
Hav Sucha Singh	(4471205L now JC-510347H)	-	20 May 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 05 May 2013.			
Hav Gurnam Singh	(4473069Y now JC-510350H)	-	12 Jul 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Dec 2012.			
Hav Balwinder Singh	(4472164Y now JC-510351L)	-	06 Jul 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 May 2013.			
Hav Sohan Singh	(4472102Y now JC-510352N)	-	06 Jul 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 May 2013.			
Hav Harmail Singh	(4472465H now JC-510353W)	-	06 Jul 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 May 2013.			
Hav Gurdeep Singh	(4472475M now JC-510354Y)	-	19 Jul 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 May 2013.			
Hav Baljit Singh	(4471173N now JC-510357M)	-	29 Jun 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jun 2013.			
Hav Manohar Singh	(4470359L now JC-510358P)	-	01 Jul 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jun 2013.			
Hav Jagsir Singh	(4471299N now JC-510359X)	-	01 Jul 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jun 2013.			
Hav Pritpal Singh	(4472525M now JC-510360M)	-	28 Jun 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jun 2013.			
Hav Amrik Singh	(4471927X now JC-510361P)	-	11 Jul 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 07 Jun 2013.			
Hav Rajbir Singh	(4472744N now JC-510362X)	-	18 Jul 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jul 2013.			

To be Naib Subedar (Clk) (SD)			
Hav (Clk) Jaya Kumar S	(4471041A now JC-510266H)	-	01 Jan 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk)(SD) with effect from 01 Jan 2013.			
Hav (Clk) Gopal Ghatany	(4468990F now JC-510267L)	-	01 Jan 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk)(SD) with effect from 01 Jan 2013.			
Hav (Clk) Vijaya Kumar VV	(4469690M now JC-510289K)	-	01 Feb 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (SD) with effect from 01 Feb 2013.			
Hav (Clk) Johnson K Oommen	(4471045W now JC-510295X)	-	22 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (Clk) (SD) with effect from 01 Mar 2013.			
Hav (Clk) Ravinder Singh	(4471031W now JC-510296A)	-	01 Mar 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Mar 2013.			
Hav (Clk) T Loyola Santhana Sowriraj	(4471260F now JC-510320L)	-	01 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2013.			
Hav (Clk) Kuldeep Singh	(4471409X now JC-510321N)	-	01 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2013.			
Hav (Clk) Munna Bhardwaj	(4471644W now JC-510322W)	-	01 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2013.			
Hav (Clk) Debasish Chowdhury	(4469700L now JC-510323Y)	-	01 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2013.			
Hav (Clk) G Amala Doss	(4471317L now JC-510324F)	-	01 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2013.			
Hav (Clk) Salim Khan	(4471727F now JC-510340Y)	-	01 Apr 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Apr 2013.			
Hav (Clk) Patil Subhash Govind	(4471753H now JC-510348L)	-	01 Jun 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jun 2013.			
Hav (Clk) Rakesh Singh Jadaun	(4472098F now JC-510349N)	-	01 Jun 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jun 2013.			
Hav (Clk) Shubeg Singh	(4471767H now JC-510355F)	-	18 Jun 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jun 2013.			
Hav (Clk) Adal Singh Chahar	(4472823H now JC-510356K)	-	27 Jun 2013*
*Granted seniority in the rank of Nb Sub (GD) with effect from 01 Jun 2013.			

JAK RIF

To be Sub (Religious Teacher)

Nb Sub (RT) Islamuddin	JC-579559Y	JAK RIF	01 st Feb 2014
------------------------	------------	---------	---------------------------

VN RAVEENDRAN
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 285, Dated 27th November 2014—The President is pleased to permit the under mentioned officer to retain his rank and wearing of uniform after resignation of his TA commission :-

TERRITORIAL ARMY

RESIGNATION

Maj H Amarbir Singh	TA-42599	(Infantry)	01 May 2014
---------------------	----------	------------	-------------

BB JOSHI
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 286, Dated 28th November 2014—The President is pleased to permit the under mentioned officer to retire with permission to retain his rank and wearing of uniform :-

TERRITORIAL ARMY

RETIREMENT

Col Rakesh Mehta

TA-41955

(Infantry)

30 Apr 2014.

BB JOSHI
Under Secy

ARMY BRANCH

No. 287, Dated 28th November 2014—The President permits the undermentioned officer to be discharged from Territorial Army Commission :-

TERRITORIAL ARMY
TO BE DISCHARGED

Lt Col Chanjiv Singh	TA(M)-1159	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Lt Col Siddhartha Niyogi	TA(M)-1163	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Lt Col RK Gupta	TA(M)-1176	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Lt Col Sanjeev Kumar Bhuyan	TA(M)-1187	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Lt Col Rajesh Sharma	TA(M)-1196	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Lt Col Anu Bhandari	TA(M)-1197	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Maj Abhijit De	TA(M)-1205	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Maj Amrit Pal Singh	TA(M)-1207	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Maj RA Solanki	TA(M)-1210	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Maj Ramen Talukdar	TA(M)-1211	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Capt Kamal Aggarwal	TA(M)-1217	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Capt Sant Prakash Kataria	TA(M)-1218	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Capt MJ Makwana	TA(M)-1225	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Capt RG Chaudhary	TA(M)-1226	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Capt Himanshu C Panchal	TA(M)-1227	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Maj Chhaya Rani Austin	TA(N)-1086	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Maj Amarjit Kaur	TA(N)-1092	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Maj Hameswari Bhuyan	TA(N)-1096	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Capt Anupama Dutta	TA(N)-1097	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Maj Mamta Sachan	TA(N)-1098	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Capt Kamlesh Ahlawat	TA(N)-1099	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Capt Shobha Rani	TA(N)-1100	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Capt Tajender Kaur Ahluwalia	TA(N)-1101	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Capt Asha Rani	TA(N)-1106	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Capt Gitumoni Konwar	TA(N)-1109	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)

Capt Dipanjali Kalita	TA(N)-1110	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Lt VB Sikedar	TA(N)-1111	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Capt Pinki Isaac	TA(N)-1112	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Capt Elizabeth Lall	TA(N)-1113	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Capt Shah Iqbal Fatma	TA(N)-1114	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Capt Savita Joshi	TA(N)-1115	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Capt JS Bhardwaj	TA(NT)-1215	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)
Capt VD Bhardwaj	TA(NT)-1216	(AMC TA)	13 Feb 2014 (AN)

BB JOSHI
Under Secy

AIR BRANCH

No. 288, Dated 1st December 2014—The President is pleased to transfer the under mentioned officer from Flying (Pilot) to Administrative branch with effect from the date indicated against his name with adjusted seniority in that branch as if he was originally commissioned in the Admin Branch. The officer will be placed between Flt Lt BS Raja Sekhar (31813) Adm and Flt Lt Kamal Kumar Mishra (32138) Adm in the Air Force List. The officer will not be entitled to Flying Pay with effect from the date of suspension from flying training i.e., 14 Oct 11 vide Air HQ/21901/31798/ PO-3(E) dated 17 Jul 12 and 26 Mar 14.

FG OFFR SHRIKANT MADGI (31798) F(P) TO ADM

WEF 14 OCT 11.

The President is pleased to transfer the under mentioned officer from Flying (Pilot) to Administrative branch with effect from the date indicated against his name with adjusted seniority in that branch as if he was originally commissioned in the Admin Branch. The officer will be placed between Flt Lt DS Sarwara (30000) Adm and Flt Lt SK Jha (30225) Adm in the Air Force List. The officer will not be entitled to Flying Pay with effect from the date of obtaining permanent low non-flying medical category i.e., 12 Aug 11 vide Air HQ/21901/29954/ PO-3(E) dated 24 Sep 12.

FG OFFR VISHAL KAUNDAL (29954)

F(P) to Adm wef 12 Aug 11.

The President is pleased to transfer the under mentioned officer from Flying (Pilot) to Administrative branch with effect from the date indicated against his name with adjusted seniority in that branch as if he was originally commissioned in the Admin Branch. The officer will be placed between Sqn Ldr R Verma (27005) Adm and Sqn Ldr P Vamsee Krishna (27242) Adm in the Air Force List. The officer will not be entitled to Flying Pay with effect from the date of obtaining permanent low non-flying medical category i.e., 30 Apr 13 vide Air HQ/21901/26999/PO-3(E) dated 30 Dec 13.

SQN LDR PANKAJ SHRIKRISHNA BOBDE (26999) F(P) to Adm wef 30 Apr 13.

SK Khanuja
Wg Cdr
JDPO-3(E)

मुद्रण निदेशालय द्वारा, भारत सरकार मुद्रणालय, एन.आई.टी. फरीदाबाद में
मुद्रित एवं प्रकाशन नियंत्रक, दिल्ली द्वारा प्रकाशित, 2014
PRINTED BY DIRECTORATE OF PRINTING AT GOVERNMENT OF INDIA PRESS,
N.I.T. FARIDABAD AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI, 2014
www.dop.nic.in